



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 28—जुलाई 4, 2008 (आषाढ़ 7, 1930)

No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 28—JULY 4, 2008 (ASADHA 7, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### भाग I—खण्ड 4

#### [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा आरी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएँ]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

(थल सेना विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जून 2008

सं. 310, दिनांक 13 जून 2008—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संबंध के श्री मोरगन आर सिंह को 01 मई, 2008 (पूर्वाह्न) से 30 जून, 2008 तक की अवधि तक अथवा अपले अद्देश आरी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में इसी मंत्रालय में तदर्थ अधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी:—

(i) तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने या अनुभाग अधिकारीयों के ग्रेड में वरिष्ठा का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा; और

(ii) केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली में विहित भर्ती के सामान्य भाष्यों द्वारा नियमित अनुभाग अधिकारी के उपलब्ध होने पर उन्हें सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

के मुख्य  
अवर सचिव

सं. 311, दिनांक 13 जून 2008—थल सेना अनुदेश 15/79 तथा उसमें जारी संशोधनों के अधीन और रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 10(3)(1)/05/डी(मेड) दिनांक 28 अक्टूबर 2005 और 29 अक्टूबर 2007 के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्व निम्नलिखित नियुक्ति 2005 वर्ष के लिए करते हैं।

नियमित सेना

सैनिक दिन चिकित्सा कोर

(अस्पतालीन कमीशन)

कैप्टन के पद पर (परख पर)

पुष्पिंदर सिंह यादूजा (डीएस-12253एफ), 24 दिसम्बर 2007

गौतम सरीन (डीएस-12254के), 26 दिसम्बर 2007

दुष्यन्त चौपडा (डीएस-12255एम), 27 दिसम्बर 2007

सुखबीर पाल सिंह धालीवाल (डीएस-12256पी), 27 दिसम्बर 2007

जगद्धीत सिंह जोनेजा (डीएस-12257एक्स), 28 दिसम्बर 2007,

अमित भंडारी (डीएस-12258ए), 29 दिसम्बर 2007

भारत भान (डीएस-12259एच), 30 दिसम्बर 2007  
हर्व वर्धन सिंह (डीएस-12260एक्स), 31 दिसम्बर 2007  
नवील खान (डीएस-12261ए), 31 दिसम्बर 2007  
मुनीष वर्मा (डीएस-12262एच), 31 दिसम्बर 2007  
संदीप मेहता (डीएस-12263एल), 31 दिसम्बर 2007  
शमीन्द्र कौर राव (डीएस-12264एन), 01 जनवरी 2008  
मिशुन जरतारकर (डीएस-12265डब्ल्यू), 01 जनवरी 2008  
अंकुर मट्टा (डीएस-12266वाई), 03 जनवरी 2008  
अशोक पस यू (डीएस-12268के), 04 जनवरी 2008  
परमिन्द्र कौर (डीएस-12269एम), 04 जनवरी 2008  
अश्वीष कुमार झा (डीएस-12270एफ), 04 जनवरी 2008  
भारत अहूजा (डीएस-12271के), 04 जनवरी 2008  
गहुल (डीएस-12272एम), 07 जनवरी 2008  
मुकेश कुमार (डीएस-12273पी), 07 जनवरी 2008  
संदीप शास्त्रिया (डीएस-12274एक्स), 08 जनवरी 2008  
बच्चु संतोष (डीएस-12275ए), 08 जनवरी 2008  
विक्रम अग्निहोत्री (डीएस-12276एच), 08 जनवरी 2008  
अंकित गुप्ता (डीएस-12277एल), 10 जनवरी 2008  
देशमुख तुषार शर्ट (डीएस-12278एन), 11 जनवरी 2008  
विरेन्द्र सिंह (डीएस-12279डब्ल्यू), 11 जनवरी 2008  
दीपा यादव (डीएस-12280एल), 11 जनवरी 2008  
सलोमी थोमस (डीएस-12281एन), 14 जनवरी 2008  
प्रीति नरवत (डीएस-12282डब्ल्यू), 14 जनवरी 2008  
शिव शंकर अग्रवाल (डीएस-12283वाई), 14 जनवरी 2008  
अशीष पटेल (डीएस-12284एफ), 14 जनवरी 2008  
ईशा शर्मा (डीएस-12285के), 15 जनवरी 2008  
ए प्रमोद (डीएस-12286एम), 16 जनवरी 2008  
दीप्ती दलाल (डीएस-12287पी), 16 जनवरी 2008  
संदीपन भट्टाचार्य (डीएस-12288एक्स), 17 जनवरी 2008  
अनमदीप सिंह (डीएस-12289उ), 17 जनवरी 2008  
अशु कटोच (डीएस-12290पी), 17 जनवरी 2008  
प्रतीक शर्मा (डीएस-12291एक्स), 17 जनवरी 2008  
हनुमत निशान (डीएस-12292ए), 18 जनवरी 2008

प्रशान्त कुमार (डीएस-12293एच), 18 जनवरी 2008  
मितिका सिंह फूल (डीएस-12294एल), 20 जनवरी 2008  
अमन विज (डीएस-12295एन), 21 जनवरी 2008  
लतिका जरताना (डीएस-12296डब्ल्यू), 21 जनवरी 2008  
शकील अहमद (डीएस-12297वाई), 21 जनवरी 2008

झी के तनेजा  
मेजर जनरल एडोजीडीएस

#### सेना शाखा

सं. 312, दिनांक 13 जून 2008

#### राष्ट्रीय कैटट कोर महानिदेशालय

1. राष्ट्रपति महोदय से से पु सिविल सेवा नियम 2001 के अंतर्गत श्री अनिल कापूर (जन्म तिथि 23 अप्रैल 1956) उप निदेशक की नियुक्ति निम्नलिखित अवधियों तक अध्या नियमित पदधारी मिलने तक बढ़ाने के लिए सहर्ष मंजूरी प्रदान करते हैं:-

#### क्रम सं. और अवधि

11. 09 अगस्त 2006 से 29 अप्रैल 2008

11. 30 अप्रैल 2008 से 29 अक्टूबर 2008

2. नियुक्ति पूर्ण रूप से कामचलाल आधार पर है और प्रशासनिक कारणों से अथवा नियमित पदधारी मिलने पर बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती है।

3. से से पु सिविल सेवा नियम 7(8) के अंतर्गत षटोन्तति/नियुक्ति के लिए कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा एवं ऐसी नियुक्ति की अवधि को उप निदेशक के ग्रेड में वरिष्ठता के लिए नहीं दिया जाएगा।

शंकर सिंह  
उप मुख्य प्रशा अधिकारी

#### एकोकृत मुख्यालय-रक्षा मंत्रालय (नौसेना)

#### प्रशासन निदेशालय (सिव)

सं 313, दिनांक 16 जून 2008 - राष्ट्रपति सहर्ष सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम 2001 के निन- 7(8) के अन्तर्गत दिनांक 09.08.2006 से 29.04.2008 की अवधि तक या अधिकारी के सेवानिवृत्त होने तक या नियोमत पदधारक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, उस समय तक उप निदेशक (वर्ष 'व' ग्राह्यत्रित) के रूप में हो तभी तक इन रुपये 10,000- 325-35,200/- की रूप में नियुक्ति को बढ़ाते हैं।

(क) श्री ए के अग्रुज

(घ) श्री द के रिह

(ग) श्री ही सी गगड़ी

- (घ) श्री दी बी सिंह
- (च) श्री ढो के मीना
- (छ) श्री हरि किशन
- (ज) श्री जगदीश सिंह
- (झ) श्री जे ए पाराम्बिल
- (ट) श्री मान सिंह
- (ठ) श्रीमती नीना मिश्रा
- (ड) श्री पी पी तनेजा
- (ढ) श्री आर के सहरावत
- (ण) श्री राज कुमार
- (त) श्रीमती सुनीला भारती

ये नियुक्ति पूर्णतया कामचलाक व्यवस्था के आधार पर की गई है तथा प्रशासकीय कारणों से बिना सूचना अथवा निर्यामित पदधारक आने पर रद्द की जा सकती है।

राष्ट्रपति, सहर्ष सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अन्तर्गत स्थानापन अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति को दिनांक 23.02.2008 से 24.08.2008 तक की अधिधि तक या नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक या अधिकारी के सेवानिवृत होने तक जो भी पहले हो, उस समय तक अनुभाग अधिकारी (वर्ग 'ख' राजपत्रित) के रूप में बेतनपान रूपये 6,500-200-10,500/- में बढ़ाते हैं:—

श्री के सौ भारद्वाज	श्री नीरज रंजन
श्री एन सौ साहू	श्री देवाशीष प्रधान
श्री एस बैनर्जी	श्री उदय कपाट
श्री एम के झा	श्री रविंद्र साह
श्री अजित सिंह इंदौरा	श्री के के मिश्रा
श्री मान सिंह	श्रीमती उज्ज्वल कौर
श्री भजन लाल	श्री एस पी मल्होत्रा
श्री ढी बी आर्या	श्री बी के सक्सेना
श्री बी के दास	श्री ए के धीर
श्री सुखेन्दु डॉन	श्री आजाद सिंह
श्री पी के दास	श्री जे पी मोणा
श्री मोहन लाल	श्री के के टाक
श्री एस के कर्दम	श्री एस सी सेठी
श्री अमरजीत सिंह	श्री एम एस रावत
श्री येद प्रकाश	श्री यू के अहूजा
श्री एन एस मदान	श्री जोगिन्दर सिंह विर्क

श्री कैलाश चन्द	श्रीमती मृदुला माथुर
श्री बी पी सिंह	श्री आर सी उप्रेती
श्री आर के साहनी	श्री गुरुवदन सिंह
श्री ढी के प्रसाद	श्री पी एन बलेचा
श्री टी यानसिंह	श्रीमती सुदेश ऐलावादी
श्री के एल मामचन्द	श्री बी बी मिश्र
श्री चांद सिंह	श्रीमती एम पाहूजा
श्री हेत प्रकाश	श्री शंभु राय
श्री आई एस ब्रामणिय	श्रीमती मीना चंद
श्री रूप चन्द	श्रीमती बीना शर्मा
श्री सुभाष विश्वास	श्री रामपाल मीना

ये नियुक्ति पूर्णतया कामचलाक व्यवस्था के आधार पर की गई है तथा प्रशासकीय कारणों से रद्द की जा सकती है।

जंकर सिंह  
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (ए)

#### रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 314, दिनांक 16 जून 2008—राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से 10,000-325-15,200/- रूपये के बेतनमान में एक वर्ष की परियोक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'सी' (ग्रुप 'ए') के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

नाम, स्थापना/प्रयोगशाला और नियुक्ति की तिथि

श्री एस आनंदन, डीएआरएल, पिथौरागढ़, 26 अगस्त 2005

टी अमृतज्ञान  
संयुक्त निदेशक

#### रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 315, दिनांक 16 जून 2008—राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से 8,000-275-13,500/- रूपये के बेतनमान में दो वर्ष की परियोक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप 'ए') के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

नाम, स्थापना/प्रयोगशाला और नियुक्ति की तिथि

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, आईआरटीई, देहरादून, 27 अप्रैल 2006

श्री सोविक चक्रवर्ती, डीएलआरएल, हैदरबाद, 27 अप्रैल 2006

सुश्री शालिनी रोहेला, वीआरडीई, अहमदनगर, 27 अप्रैल 2006

श्री नेनी मेडीचैरा, एमटीआरडीसी, बैंगलौर, 27 अप्रैल 2006

सुश्री चिंतोजी श्रीलता, एसएल, हैदराबाद, 27 अप्रैल 2006

सुश्री कविता, डेवीडॉक, दिल्ली, 08 अगस्त 2006

श्री मनोश ठंडन, आईआरडीई, देहरादून, 27 अप्रैल 2006

श्री संदीप मिश्रा, आईआरडीई, देहरादून, 27 अप्रैल 2006

सुश्री नितिमा सिंह, अनुराग, हैदराबाद, 27 अप्रैल 2006

श्री संजीवा रेड्डी वाई, एसएल, हैदराबाद, 27 अप्रैल 2006

सुश्री बी आर सुब्रमा, एसआरडीई, बैंगलौर, 02 मार्च 2006

श्री नीरज पांडे, आईआरडीई, देहरादून, 27 अप्रैल 2006

श्री छी प्रबोध कुमार, आईएनएस शिवाजी, पुणे, 16 अक्टूबर 2006

श्री अमित कुमार, डोईएल, देहरादून, 02 नवम्बर 2006

श्री प्रशांत अविनाश कुलकर्णी, आईआरडीई, देहरादून, 27 अप्रैल 2006

श्री सुभाष कुमार गौतम, आईआरडीई, देहरादून, 27 अप्रैल 2006

बी पी पांडे  
सह-निदेशक

#### राष्ट्रीय कैडेट कोर

सं. 316, दिनांक 16 जून 2008--नीचे दिए गए कुलपतियों के राष्ट्रीय कैडेट कोर में अधैतरीक कर्नल का रैंक दिया जाता है और उन्हें उनके संबंधित विश्वविद्यालयों में कुलपति के रूप में उनकी नियुक्ति की अवधि तक के लिए कर्नल कॉमानेन्ट के रूप में नियुक्त किया जाता है जैसा कि उनके नाम के सामने दर्शाया गया है:--

कुलपति का नाम, निदेशालय का नाम, विश्वविद्यालय का नाम और कुलपति के पद पर नियुक्ति को तारीख

(द्वा.), प्रो. श्रीनिवास के सैदापुर कुलपति, कर्नाटका एवं गोवा, कर्नाटका विश्वविद्यालय, पञ्चते नगर धारवाड, कर्नाटका, 25 अक्टूबर 2006

डॉ. कमर अहसन कुलपति, बिहार एवं झारखण्ड, बी एन मंडल विश्वविद्यालय, मेधापुर, बिहार, 20 नवम्बर 2006

डॉ. प्रेमा इति कुलपति, बिहार एवं झारखण्ड, टिलका मार्जी विश्वविद्यालय, भागलपुर, 20 नवम्बर 2006

प्रो. (डॉ.) पी के अक्कुल अजीज, कुलपति, यू. पी., अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, 11 जून 2007

डॉ. वैकटराज मनोहरराव मायमन्डे, कुलपति, महाराष्ट्र, डॉ. मनोहरराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय कृषि नागर, अकोला, 04 जुलाई 2007

प्रो. हासन अन्नेगोडा रंगनाथ कुलपति, कर्नाटका एवं तोला देंगलीय विश्वविद्यालय, बैंगलौर, 29 पड़ 2007

डॉ. ओब्रैया अनंतरामैथा, कुलपति, कर्नाटका एवं गोवा, तुम्कूर विश्वविद्यालय, एम जी रोड, तुम्कूर कर्नाटका, 24 मार्च 2005

डॉ. भरतकुमार जी परेल, कुलपति, गुजरात, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, चत्तलाप विद्यानगर, गुजरात, 17 मई 2007

डॉ. एम पोन्तेको, कुलपति, टीएनपी एवं ए.एन, भरतीसदासन विश्वविद्यालय, तिरुच्चीरापल्ली, 11 जुलाई 2007

डॉ. पी रामसामी, कुलपति, टीएनपी एवं ए.एन, अलगाया विश्वविद्यालय, तमिलनाडु, 25 जुलाई 2007

प्रो. राम राजेश मिश्रा, कुलपति, एम पी एवं सी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, (एमपी), 24 नवम्बर 2004

यू.के.धर  
द्वितीय

उप महानिदेशक (एमएस)

---

सं. 317, दिनांक 17 जून 2008--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:--

नियमित सेवा

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेवा अनुदेश 219/50 के अन्तर्गत उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से लेफिनैट की ईक में स्थायी कमीशन दिया जाता है और 10 अप्रैल 2007 से उन्हें अल्पकालीन सेवा कमीशन से मृक्त किया जाता है:--

आर्मी संघ्राम, पद और नाम, अल्पकालीन सेवा कमीशन की तिथि, पूर्व की विरिष्टता के पश्चात् विरिष्टता की तिथि, वेतन एवं पदोन्नति हेतु विरिष्टता की तिथि और स्थायी कमीशन की तिथि

लेफिट मोहम्मद आदिल लक्कूब (बीएस-1074एफ अब वी-578एच), 24 मार्च 2003, 24 मार्च 2002, 24 मार्च 2002, 10 अप्रैल 2007

लेफिट सुधार चन्द्र पटियाल (बीएच-1084एल अब वी-579एल), 13 सितम्बर 2004, 13 सितम्बर 2003, 13 सितम्बर 2003, 10 अप्रैल 2007

लेफिट गुरदीप सिंह (बीएस-1086डब्ल्यू, अब वी-580ए), 13 सितम्बर 2004, 13 सितम्बर 2004, 13 सितम्बर 2004, 10 अप्रैल 2007

लेफिट गजेन्द्र सिंह राईर (बीएस-1088एफ अब वी-581एच), 13 सितम्बर 2004, 13 सितम्बर 2003, 13 सितम्बर 2003, 10 अप्रैल 2007

लेफिट आलोक कृमार पिल्लडे (बीएस-1090वाई अब वी-582एल), 13 सितम्बर 2004, 13 सितम्बर 2004, 13 सितम्बर 2004, 10 अप्रैल 2007

लेफिट करबासप्पा गुरुखर (बीएस-1092के अब वी-583एन),  
13 सितम्बर 2004, 13 सितम्बर 2004, 13 सितम्बर 2004, 10 अप्रैल  
2007

लेफिट चिकास कुमार प्रधान (बीएस-1098एल अब वी-584डब्ल्यू),  
13 सितम्बर 2004, 13 सितम्बर 2003, 13 सितम्बर 2003, 10 अप्रैल  
2007

लेफिट पिंगे भित्तल (बीएस-1100एस अब वी-585वाई),  
13 सितम्बर 2004, 13 सितम्बर 2003, 13 सितम्बर 2003, 10 अप्रैल  
2007

पी रामा शास्त्री  
अबर सचिव

सं. 318, दिनांक 17 जून 2008--राष्ट्रपति, भारतीय बन सेना (एमटी :  
86) के डॉ. अजय कुमार को उनके सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत  
केंद्रीय प्रतिनियुक्त अवधि के शेष दो वर्ष की अवधि अर्थात् 08 अगस्त  
2008 से 07 अगस्त 2010 तक के लिए रक्षा मंत्रालय में निदेशक के रूप में  
रहने की अनुमति देते हैं।

के मुरली  
अबर सचिव

सेना सचिव शाखा

सं. 319, दिनांक 17 जून 2008--राष्ट्रपति, सहर्व निम्नलिखित पदोन्नतियां  
करती हैं:-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

ब्रिगेडियर के घूल रैक में

रैक, नाम, आईसी, आर्म और ब्रिगेडियर के घूल रैक की प्रभावी तिथि  
कर्नल जे के श्रीवास्तव (वी-00330), आरबीसी, 01 नवम्बर 2006

कर्नल एम एस शर्मा (वी-00334), आरबीसी, 01 नवम्बर 2006

कर्नल एस एस उकराल (वी-00341), आरबीसी, 01 दिसम्बर 2006

कर्नल एम एन वेन्यूगोपालन (एसएल-02790), एसएल (आरओ),  
04 मई 2007

एन के फूकन  
निदेशक/एमएस (एक्स)

सेना शाखा

सं. 320, दिनांक 17 जून 2008--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों  
को सहर्व पदोन्नत करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से लै. कर्नल

नाम, आई सी सं., आर्म और प्रभावित तिथि

मनप्रीत सिंह छिल्लो (आईसी-46952), आर्टी, 22 अक्टूबर 2007

सतीन्द्र कुमार सिंह (आईसी-51076), एससी, 22 अक्टूबर 2007

सुरेन्द्र सिंह (आईसी-52623), आर्टी, 22 अक्टूबर 2007

अमय शंकर मुखर्जी (आईसी-53043), आर्टी, 22 अक्टूबर 2007

महेन्द्र कुमार सिंह (आईसी-53211), इन्फैन्ट्री, 10 दिसम्बर 2007

राजीव ए (आईसी-53439), एड्सी, 10 दिसम्बर 2007

शैलेन्द्र प्रताप सिंह (आईसी-53449), इन्फैन्ट्री, 10 दिसम्बर 2007

शैलेन्द्र सिंह शाही (आईसी-54764), इन्फैन्ट्री, 22 अक्टूबर 2007

संजय वाशिंगटन (आईसी-54790), एससी, 22 अक्टूबर 2007

अजय सांगवान (आईसी-54937), इन्फैन्ट्री, 22 अक्टूबर 2007

आकाश थोले (आईसी-56909), ईएमई, 10 दिसम्बर 2007

जसवन्त सिंह

संयुक्त निदेशक एमएस (उसी)

(धल सेना विभाग)

सं. 321, दिनांक 18 जून 2008--धल सेना अनुदेश 37/78 व उसमें  
जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्व निम्नलिखित पदोन्नति करते  
हैं:-

नियमित सेना

सैनिक दंत चिकित्सा कोर

स्थाई कमीशन

मेजर से लैफिट कर्नल के पद पर

आर बोरठाकुर (डीआर-10493ए), 06 जनवरी 2008

नीरज कुमार (डीआर-10543ए), 04 मार्च 2008

एम एम गोस्कारी (डीआर-10462ए), 07 मार्च 2008

थल सेना अनुदेश 15/79 के उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्व निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

#### नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

अल्पकालीन कमीशन

कैप्टन से अद्धस्थाई मेजर के पद पर

अनिता राज (डीएस-12110एफ), 07 फरवरी 2008

विवेक मलिक (डीएस-12111के), 08 फरवरी 2008

सुमित कलेयर (डीएस-12112एम), 18 फरवरी 2008

रीमा सिंह (डीएस-12113पी), 24 फरवरी 2008

डौ के तनेजा

मेजर जनरल ए डौ जौ डी एम

-----

#### सेना शाखा

सं. 322, दिनांक 18 जून 2008--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्व पदोन्नति करते हैं:—

#### नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले. कर्नल

नाम, आई सी सं., आर्म और प्रभावित तिथि

बद्रनी कन्हैया लाल लीलारेन (आईसी-41281), इंजी., 16 दिसम्बर 2004

अजय ब्राफिला (आईसी-52653), एसी, 11 दिसम्बर 2006

सैलेन्द्र पट्टनाथक (आईसी-52679), सिग्नल्स, 11 दिसम्बर 2006

शोभना त्रिपाठी (डब्ल्यूएम-00075), ईसी, 05 सितम्बर 2007

पी बी पान्दुर्गी (आईसी-39414), इंजी., 16 दिसम्बर 2004

मनू कुमार (आईसी-53214), एओसी, 10 दिसम्बर 2007

राजेश मिश्रा (आईसी-53263), इन्फॉन्ट्री, 10 दिसम्बर 2007

बलेन्दु सिंह नेगी (आईसी-54772), जैड, 21 अप्रैल 2006

चिनोद कुमार (आईसी-46633), एएससी, 08 नवम्बर 2006

विक्रम सिंह (आईसी-46969), एसी, 22 अप्रैल 2006

कातान से मेजर

नाम, एमएल से और आर्म

सुरेश कुमार (एसएल-4691), एसडब्ल्यू (ईआर)

संन्धिल कुमार डी (एसएल-4692), ईई/बी/आर/(ईआर)

रमेश्वर (एसएल-4693), ईई/बी/आर/(ईआर)

करन्दे शिव मूर्ति भगवदेव (एसएल-4694), एसडब्ल्यू (ईआर)

जितेन्द्र सिंह (एसएल-4695), ईई/बी/आर/(ईआर)

बी बासबा लिंगा प्रसाद (एसएल-4696), ईई/बी/आर/(ईआर)

बलबीर सिंह (एसएल-4697), ईई/बी/आर/(ईआर)

शाम सिंह (एसएल-4698), ईई/बी/आर/(ईआर)

इंदर सिंह (एसएल-4699), एसडब्ल्यू (ईआर)

जय प्रकाश यू बी (एसएल-4701), एसडब्ल्यू (ईआर)

संजय पाटिल (एसएल-4702), ईईई/एम/(ईआर)

उन्नी कृष्ण नायर आर (एसएल-4703), आर ओ (एससी)

आर एस बनकोटि (एसएल-4704), ईई/बी/आर/(ईआर)

अनिल कुमार (एसएल-4705), ईई/बी/आर/(ईआर)

राजेश बासुदेवा (एसएल-4706), ईईई/एम (ईआर)

एम राजिया (एसएल-4709), ईई/बी/आर/(ईआर)

अनिल हरिभा दलवी (एसएल-4710), ईई/बी/आर/(ईआर)

के एन सुनील कुमार (एसएल-4712), ईई/बी/आर/(ईआर)

ए के सिंह (एसएल-4713), आर ओ (ईएमई)

विनोद कुमार (एसएल-4714), ईई/बी/आर/(ईआर)

हरिहर कुमार एन (एसएल-4715), आरओ (ईएमई)

एस आमस एडवर्ड (एसएल-4716), इएमएर्ड (ईएमई)

भूषण मोहनी (एसएल-4717), आरओ (एससी)

टी सम्पत (एसएल-4718), आरओ (एससी)

जयबीर सिंह (एसएल-4719), सिग्नल्स

बलजीत सिंह (एसएल-4720), सिग्नल्स

श्री कुमार एस (एसएल-4721), आरओ (एससी)

रमबीर सिंह (एसएल-4722), आरओ (एससी)

पी के पात्री (एसएल-4723), आरओ (एओसी)

रमेश्वर (एसएल-4724), आरओ (इन्फॉन्ट्री)

मुनोज कुमार भल्ला (एसएल-4725), आरओ (एससी)

नरेन्द्र कुमार दुबे (एसएल-4727), आरओ (आर्टी)

राजीव लो (एसएल-4728), आरओ (ईआर)  
 एम अलामु (एसएल-4730), आरओ (ईएमई)  
 विजय पाल (एसएल-4731), टीईओ (एडी आर्टी)  
 एप ली कृष्ण कुमार (एसएल-4732), एर्डीई/एम (ईआर)  
 तेजमिदर सिंह (एसएल-4733), ईएमएई (ईएमई)  
 जी उथिरिया राज (एसएल-4734), आरओ (ईआर)  
 श्रवण राम (एसएल-4735), आरओ (इन्फैन्ट्री)

--02 अप्रैल 2008

जसधन सिंह  
 संयुक्त निदेशक एमएस-8सी

सेना शाखा

सं. 323, दिनांक 18 जून 2008—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों  
 को सहर्ष पदोन्नत करने की अनुमति प्रदान करते हैं:—

#### प्रादेशिक सेना

##### प्रादेशिक कमीशन

सै. कर्नल बनाया जाता है

मेजर एम एन आर बचार (टीए-42080), इन्फैन्ट्री, 04 फरवरी 2007  
 मेजर राकेश भट्टलार (टीए-42082), इन्फैन्ट्री, 04 फरवरी 2007  
 मेजर राशिद अहमद (टीए-42123), इन्फैन्ट्री, 29 फरवरी 2007  
 मेजर बी बी एस चन्द्रा (टीए-42125), इन्फैन्ट्री, 02 मई 2007  
 मेजर पी एस राहीर (टीए-42331), इन्फैन्ट्री, 27 सितम्बर 2007  
 मेजर राजेन तंबर (टीए-42344), इन्फैन्ट्री, 08 जुलाई 2007

मेजर बनाया जाता है

कैप्टन अर्पण आनन्द (टीए-42591), इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004  
 जय राज  
 अकर सचिव

सेना शाखा

सं. 324, दिनांक 18 जून 2008—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित एमसी  
 अधिकारियों को उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं:—

#### नियमित सेना

##### स्थायी कमीशन

मेजर से सै. कर्नल के पद पर

संजय श्रीवास्तव (एमआर-07377एस), एमसी, 13 मार्च 2006

हिमांशु दीक्षित (एमआर-07206ए), एमसी, 05 अगस्त 2006  
 करुणा दत्ता (एमआर-06737एल), एमसी, 04 जनवरी 2007  
 आर मोश्करी (एमआर-06757वाई), एमसी, 04 जनवरी 2007  
 सत्य सोम सरकार (एमआर-07767पी), एमसी, 10 अक्टूबर 2007  
 हस्तनन कीर बेदी (एमआर-07934ए), एमसी, 05 जनवरी 2008  
 पवन शर्मा (एमआर-06886वाई), एमसी, 08 जनवरी 2008  
 रंजीत कुमार (एमआर-06897एल), एमसी, 08 जनवरी 2008  
 अब्दुल शाया पान्डे (एमआर-06901एच), एमसी, 08 जनवरी 2008  
 अनुपम घोषल (एमआर-08004एल), एमसी, 26 फरवरी 2008  
 किरण उपाध्याय (एमआर-07866एक्स), एमसी, 04 जनवरी 2008  
 रिचा जोशी (एमआर-07869एल), एमसी, 04 जनवरी 2008  
 नितू सिंह (एमआर-07873एन), एमसी, 04 जनवरी 2008  
 दिव्या सिंह (एमआर-07878एन), एमसी, 04 जनवरी 2008  
 पारश सिंहल (एमआर-07893एफ), एमसी, 04 जनवरी 2008  
 प्रेमिल कुमार (एमआर-07896पी), एमसी, 04 जनवरी 2008  
 जनमोत सिंह कुल्लर (एमआर-07918एच), एमसी, 22 फरवरी 2008  
 दिवेक तिवारी (एमएस-14746एफ), (एमआर-08477के), एमसी,  
 04 दिसम्बर 2007  
 तनु त्रिपाठी (एमएस-14748एम), (एमआर-08478एम), एमसी,  
 09 दिसम्बर 2007  
 अनुराग जैन (एमएस-14769एच), (एमआर-08469एल), एमसी,  
 17 फरवरी 2008  
 रीति सिसोदिया (एमएस-14770एक्स), (एमआर-08494के),  
 एमसी, 17 फरवरी 2008

सर्जन लैफिट से सर्जन लैफिट कमांडर

श्रीराम विजय भास्कर (एमआर-07559), (75758ए), एमसी,  
 05 फरवरी 2006

सौमित्रा मोहनी (एमआर-7804एक्स), (75809टी), एमसी,  
 02 अगस्त 2007

बिजेश कुमार सोनी (एमआर-8464एम), (75825बी), एमसी,  
 28 नवम्बर 2007

सौरभ टनड़न (एमआर-8523एन), (75829एन), एमसी, 01 जनवरी  
 2008

सर्जन कमांडर/कैप्टन (टीएस) से सर्जन कैप्टन (चयन) के पद पर

वीएसएसआर रथाली (एमआर-04343एन)(75271), 24 मार्च 2006  
 वेतन व पैन्सन पर बिना प्रभाव छाले काल्पनिक वरीयता 26 दिसम्बर 2005  
 से दी जाती है।

आर कालिरा (एमआर-04564ए)(75281), 24 मार्च 2006 वेतन व पेशान पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 मार्च 2006 से दी जाती है।

सर्जन कैप्टन (टोएस) (व समकक्ष) सर्जन कैप्टन (बयन व समकक्ष)

राजीव धीर (एमआर-04209एच)(75262), 21 मार्च 2006 वेतन व पेशान पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 29 दिसम्बर 2005 से दी जाती है।

जी रवीन्द्रनाथ  
लिंगे.

उप डीजीएफएमएस (पी)

#### अल सेना विभाग

सं. 325, दिनांक 19 जून 2008—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:-

#### नियमित सेना

इन्फॉर्मी

मैकानाइज्ड इन्फॉर्मी रेजिस्टर

सूबेदार मेजर के रैक में

सूबेदार इराप्पा तिलगानजी (जेसी-418298एल), 26 फरवरी 2008\*  
\*(सूबेदार मेजर के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाती है।)

#### सूबेदार के रैक में

नायब सूबेदार सत पाल (जेसी-419848पी), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार मोहम्मद फारुक (जेसी-419889वाई), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार राज कुमार (जेसी-419915पी), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार बाबर मोहन नागनाथ (जेसी-420091के), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार हुकम सिंह (जेसी-420166डस्यू), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार पदमानाभान दी (जेसी-419816एम), 15 फरवरी 2008\*

\*(सूबेदार मेजर के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 फरवरी 2008 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार छो जयाचन्द्रन (जेसी-419864एम), 11 फरवरी 2008

नायब सूबेदार करन सिंह (जेसी-419652एफ), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार विजय कुमार परीदा (जेसी-419880पी), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार भरत टेब सिंह (जेसी-420039एफ), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-420080एक्स), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार राम निवास (जेसी-420081ए), 02 मार्च 2008\*

\*(सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार मूल चन्द गूजर (जेसी-420098एन), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार प्रवीन सिंह (जेसी-420109पी), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार हेत राम (जेसी-420112एन), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार राम निवास सिंह (जेसी-420118डस्यू), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार केशर सिंह (जेसी-420134एन), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार मलखान सिंह (जेसी-420187एम), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार राजपाल (जेसी-420220वाई), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार के रैक में

हवलदार जगदीश सिंह (सं. 14913219ए अब जेसी-420881वाई), 09 फरवरी 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जाती है।)

हवलदार सोहन सिंह (सं. 14910491एफ अब जेसी-420882एफ), 09 फरवरी 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जाती है।)

हवलदार युनेन्द्र पाल सिंह चौहान (सं. 29885043एक्स अब जेसी-420883के), 21 जनवरी 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 जनवरी 2008 से दी जाती है।)

हवलदार महेन्द्र सिंह (सं. 2988575एक्स अब जेसी-420884एम), 16 फरवरी 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 जनवरी 2008 से दी जाती है।)

हवलदार राजविन्द्र सिंह (सं. 14911477एफ अब जेसी-420885पी), 30 जनवरी 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 जनवरी 2008 से दी जाती है।)

हवलदार महा राम (सं. 2985496एक्स अब जेसी-420886एक्स), 01 फरवरी 2008

हवलदार भीम सिंह (सं. 198551उएम अब जेसी-420887उ), 02 फरवरी 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाती है।)

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद सैनी (सं. 14915131पी अब जेसी-420888एच), 01 फरवरी 2008

हवलदार राम देव (सं. 14913139एच अब जेसी-420889एल), 01 फरवरी 2008

हवलदार नन्द लाल (सं. 14911930एन अब जेसी-420890ए), 01 फरवरी 2008

हवलदार सत पाल (सं. 14908506ए अब जेसी-420891एच), 01 फरवरी 2008

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 14912351एन अब जेसी-420892एल), 01 फरवरी 2008

हवलदार के मुर्खान (सं. 14914472एन अब जेसी-420893एन), 08 फरवरी 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैक में बेतन और भत्तों पर प्रभाव छाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाती है।)

हवलदार मुखदेव सिंह (सं. 14911689एम अब जेसी-420894डब्ल्यू), 12 फरवरी 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैक में बेतन और भत्तों पर प्रभाव छाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाती है।)

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 14914749एफ अब जेसी-420895वाई), 28 फरवरी 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैक में बेतन और भत्तों पर प्रभाव छाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाती है।)

हवलदार राम नरेश (सं. 14913570एफ अब जेसी-420896एफ), 01 फरवरी 2008

हवलदार पी मुर्खान (सं. 14914474वाई अब जेसी-420897के), 27 फरवरी 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैक में बेतन और भत्तों पर प्रभाव छाले बिना ज्येष्ठता 10 फरवरी 2008 से दी जाती है।)

हवलदार कान्देकर बबन लक्ष्मण (सं. 14908486एक्स अब जेसी-420898एम), 01 मार्च 2008

हवलदार फतेह सिंह (सं. 2985516ए अब जेसी-420899पी), 01 मार्च 2008

हवलदार हन्द सिंह (सं. 2985581ए अब जेसी-420900वाई), 01 मार्च 2008

हवलदार राम पाल (सं. 14911100एक्स अब जेसी-420901वाई), 01 मार्च 2008

हवलदार सूरजीत सिंह (सं. 14911012एफ अब जेसी-420902के), 08 मार्च 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैक में बेतन और भत्तों पर प्रभाव छाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैक में

हवलदार/लिपिक उत्पाल सिन्हा राय (सं. 14912268डब्ल्यू अब जेसी-420878वाई), 18 दिसम्बर 2007\*

\*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैक में बेतन और भत्तों पर प्रभाव छाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जाती है।)

हवलदार/लिपिक सुदामा मिश्र (सं. 14912339एम अब जेसी-420803एम), 01 जनवरी 2008

हवलदार/लिपिक धर्म भवर सिंह (सं. 14916838वाई अब जेसी-420879एफ), 01 जनवरी 2008

हवलदार/लिपिक हंस राज (सं. 14912348एन अब जेसी-420880डब्ल्यू), 01 जनवरी 2008

हवलदार/लिपिक करम बीर सिंह (सं. 14912401एन अब जेसी-420904पी), 01 फरवरी 2008

हवलदार/लिपिक दया शंकर सिंह यादव (सं. 14912402डब्ल्यू अब जेसी-420905एक्स), 01 फरवरी 2008

हवलदार/लिपिक सुरेश कुमार (सं. 14912404एफ अब जेसी-420906ए), 01 मार्च 2008

हवलदार/लिपिक दलबीर सिंह (सं. 14912409ए अब जेसी-420907एच), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार (एस के टी) के रैक में

हवलदार/एसकेटी रवीन्द्र सिंह (सं. 14904098एच अब जेसी-420877डब्ल्यू), 01 जनवरी 2008

हवलदार/एसकेटी देव दास ड्विबेटी (सं. 14907410एल अब जेसी-420908एल), 01 मार्च 2008

हवलदार/एसकेटी सतोश कुमार (सं. 14907724एम अब जेसी-420909एन), 01 मार्च 2008

थल सेना

सं. 326, दिनांक 19 जून 2008--राष्ट्रपति सहर्व निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:--

नियमित सेना

तोपखाना अधिकारी

नायब सूबेदार (बलक जीटी/एसकेटी) के पद में

हवलदार/बलक राम बहादुर सिंह (सं. 14495617एच अब जेसी-270875एक्स), 01 नवम्बर 2007

हवलदार/बलक चरन सिंह तोमर (सं. 14495628पी अब जेसी-270970के), 01 नवम्बर 2007

हवलदार/बलक कमलेश कुमार (सं. 14383348ए अब जेसी-270971एम), 01 नवम्बर 2007

हवलदार/बलक ओम प्रकाश शर्मा (सं. 14383400एक्स अब जेसी-270876ए), 01 नवम्बर 2007

हवलदार/कलर्क चंद्र पाल सिंह (सं. 14383401ए अब जेसी-271077डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2007

हवलदार/कलर्क शिव कुमार (सं. 14383419डब्ल्यू अब जेसी-270972पी), 01 नवम्बर 2007

हवलदार/कलर्क बंश राज ग्वाल (सं. 14485803एल अब जेसी-270877एच), 01 नवम्बर 2007

हवलदार/कलर्क प्रदीप कुमार मिश्रा (सं. 14486835ए अब जेसी-270973एक्स), 01 नवम्बर 2007

हवलदार/कलर्क राम कुमार सिंह (सं. 14383748एम अब जेसी-270974ए), 01 नवम्बर 2007

हवलदार/कलर्क सुभाष चन्द्र (सं. 14383789डब्ल्यू अब जेसी-270878एल), 01 नवम्बर 2007

\*(व्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दी जायेगी)

हवलदार/कलर्क प्रेम सिंह (सं. 14497509एक्स अब जेसी-270879एन), 01 नवम्बर 2007

हवलदार/एस के दी राम पती प्रसाद (सं. 14385786एफ अब जेसी-270975एच), 01 नवम्बर 2007

हवलदार/कलर्क सत्या नंदन के बी (सं. 14497489पी अब जेसी-271078वाई), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार/कलर्क तरके शबर ओझा (सं. 14497822एच अब जेसी-271079एफ), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार/कलर्क ब्रतेंद्रा कुमार विश्वास (सं. 14497825डब्ल्यू अब जेसी-271080डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार/कलर्क राम भगत (सं. 14497918एल अब जेसी-270976एल), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार/कलर्क संजय (सं. 14497935एच अब जेसी-270977एन), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार/कलर्क विजेन्द्रा शर्मा (सं. 14497944एम अब जेसी-270978डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार/कलर्क ईश्वर सिंह (सं. 14498142पी अब जेसी-270979वाई), 01 दिसम्बर 2007

हवलदार/कलर्क रंजीत सिंह (सं. 14498146एल अब जेसी-271081वाई), 01 दिसम्बर 2007

\*(व्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दी जायेगी)

नियमित सेना

पायनियर कोर

स्थाई सूबेदार (जीडी)/कलर्क (जीडी)

ईक, नाम, जेसी नम्बर और पदोन्नति दिनांक

नायब सूबेदार/जीडी एमडी बाबू मिया चौधरी (जेसी-829286के), 04 जुलाई 2007@

नायब सूबेदार/जीडी शिव लाल (जेसी-829292एक्स), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार/जीडी प्रेम पाल सिंह (जेसी-829293ए), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार/जीडी इन्दु कुमार पाण्डे (जेसी-829294एच), 01 अक्टूबर 2007#

नायब सूबेदार/जीडी इन्दु कुमार सिंह (जेसी-829296एन), 03 अक्टूबर 2007#

नायब सूबेदार/जीडी राम पाल सिंह (जेसी-829297डब्ल्यू), 14 नवम्बर 2007#

नायब सूबेदार/जीडी सुभरमनी एस एम (जेसी-829299एफ), 08 अक्टूबर 2007#

नायब सूबेदार/जीडी राज पाल गुर्जर (जेसी-829300एल), 01 नवम्बर 2007#

नायब सूबेदार/जीडी नरेताम सिंह (जेसी-829301एन), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार/जीडी राधेमन (जेसी-829302डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2007#

नायब सूबेदार/जीडी विनोद कुमार चौधरी (जेसी-829305के), 06 नवम्बर 2007\*

नायब सूबेदार/जीडी चन्द्रा त्रिकुरी (जेसी-829306एम), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार/जीडी सनवीर सिंह (जेसी-829307पी), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार/जीडी वादल कुमार शाहा (जेसी-829308एक्स), 18 दिसम्बर 2007\$

नायब सूबेदार/जीडी वेट प्रकाश सिंह (जेसी-829094एम), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार/जीडी दया नन्द सिंह यादवा (जेसी-829122एन), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार/कलर्क जीडी राधा कृष्णन एम के (जेसी-829198एन), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार/कलर्क जीडी अनिलधन एम आर (जेसी-829199डब्ल्यू), 01 जनवरी 2008

\$ (वरिष्ठता 01 जून 2007 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना।)

\$(वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना।)

# (वरिष्ठता 01 नवम्बर 2007 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना।)

\* (वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना।)

पी रामा शास्त्री  
अवर सचिव

यल सेना विभाग (एमजीओ) ई प्र० ई कार्मिक सं. 327, दिनांक 19 जून 2008--राष्ट्रपति सहर्व निम्नालिखित पदोन्तियां करते हैं।	सूबेदार कुलदीप कुमार शर्मा (जेसी-751391एल), 01 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008*
सूबेदार मेजर आरटीजन (ईसी) के रैक में	सूबेदार पी बी जया सीलन (जेसी-751274ए), 01 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008*
सूबेदार सुलेमान खान (जेसी-752721एल), 11 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008*	सूबेदार प्रीतम सिंह सेनी (जेसी-751382के), 01 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008*
सूबेदार राम सकल प्रसाद (जेसी-753632वाई), 01 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008*	सूबेदार हरेश सिंह (जेसी-750893एफ), 24 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007*
सूबेदार मेजर आरटीजन (एनई) के रैक में	सूबेदार गगत चन्द (जेसी-750842एन), 08 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007*
सूबेदार मुकदेव राम गुप्ता (जेसी-752339पी), 01 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008*	सूबेदार रामबचन सिंह यादव (जेसी-751301वाई), 01 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008*
सूबेदार मेजर कलर्क (जीडी) के रैक में	सूबेदार जी मंगलपुरो भिखापुरी (जेसी-750832के), 14 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007*
सूबेदार नोहम्मद इरफान मिट्टीकी (जेसी-749057एल), 04 दिसम्बर 2007/01 नवम्बर 2007*	सूबेदार मदन मोहन (जेसी-750769ए), 01 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008*
सूबेदार पी थाबी गैमनी (जेसी-749060एल), 01 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007*	सूबेदार विजय शंकर (जेसी-751306एक्स), 01 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008*
सूबेदार गुलकन कुमार (जेसी-749279ए), 09 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008*	सूबेदार सुभाष सिंह (जेसी-751023डब्ल्यू), 01 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008*
सूबेदार सुब्रत हाजरा (जेसी-748525एन), 01 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008*	सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-750404एल), 01 फरवरी 2008/01 अप्रैल 2007*
सूबेदार राकेश कुमार पठनिया (जेसी-749196पी), 01 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008*	सूबेदार लाल बहादुर राय (जेसी-748864एन), 01 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008*
सूबेदार मेजर (झी डब्ल्यू) के रैक में	सूबेदार दीक्षान सिंह (जेसी-750568एफ), 31 दिसम्बर 2008/01 सितम्बर 2007*
सूबेदार एस आरोकियानाथन (जेसी-752929एन), 01 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008	सूबेदार राजेश्वर सिंह (जेसी-750596एन), 01 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008*
सूबेदार मेजर रिकवरी (मैक) के रैक में	सूबेदार भूपीन्दर कुमार (जेसी-751298के), 01 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008*
सूबेदार सशीधरन पी के (जेसी-749166एक्स), 01 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007*	सूबेदार अरुण कुमार (जेसी-749859पी), 07 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008*
सूबेदार मेजर (आरटी) के रैक में	सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-750296एम), 05 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008*
सूबेदार कमला प्रसाद पाण्डे (जेसी-123862ए), 28 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007*	सूबेदार गुनासेकर्म के (जेसी-750752एम), 12 अक्टूबर 2007/01 अक्टूबर 2007*
सूबेदार मेजर (एसकेटी) के रैक में	सूबेदार मेजर टेक (एक्टीएन) के रैक में
सूबेदार सूर्योदय सिंह (जेसी-750691ए), 17 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007*	सूबेदार जगरुप सिंह (जेसी-753761वाई), 08 दिसम्बर 2007/01 नवम्बर 2007*
सूबेदार चिरेन्द सिंह (जेसी-749245एम), 01 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008*	सूबेदार रघुबीर सिंह (जेसी-753733एम), 06 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008*
सूबेदार मेजर (टेक) के रैक में	
सूबेदार फूल सिंह (जेसी-750999एन), 11 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008*	

सूबेदार तुल्लु राम (जेसी-753731एफ), 07 दिसम्बर 2007/01 नवम्बर 2007\*

सूबेदार टीका राम (जेसी-753736ए), 07 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

\*(पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।)

सूबेदार (आरपोर) के रैंक में

नायब सूबेदार राजिन्दर सिंह (जेसी-758143एक्स), 06 दिसम्बर 2007/01 नवम्बर 2007\*

सूबेदार अरटीजन (एक्सेन) के रैंक में

नायब सूबेदार एस जगदेन पन्नु (जेसी-760483वाई), 01 जनवरी 2008/01 अक्टूबर 2007\*

नायब सूबेदार बुद्धि बस्लभ (जेसी-760481एन), 17 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007\*

नायब सूबेदार महीपाल सिंह (जेसी-760482डब्ल्यू), 15 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007\*

सूबेदार आरओजन (ईसी) के रैंक में

नायब सूबेदार विजय कुमार सिंह (जेसी-757646डब्ल्यू), 09 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार जुगल किशोर पाण्डे (जेसी-759063एम), 26 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007\*

नायब सूबेदार रमेश चन्द (जेसी-759064पी), 13 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007\*

सूबेदार आरटीजन (एनई) के रैंक में

नायब सूबेदार बहदूर राम मसाहरी (जेसी-758089पी), 03 जनवरी 2008/01 अक्टूबर 2007\*

नायब सूबेदार ओमबोर सिंह (जेसी-758396एम), 07 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

सूबेदार कलर्क (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार रवीन्द्र सिंह (जेसी-754851एम), 15 सितम्बर 2007/01 जुलाई 2007\*

नायब सूबेदार रमेश कुमार गुर (जेसी-754982एक्स), 14 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007\*

नायब सूबेदार धनराज सिंह (जेसी-754985एल), 18 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007\*

नायब सूबेदार सुरेश चन्द (जेसी-754987डब्ल्यू), 01 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार रघुधीर सिंह (जेसी-755029पी), 01 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार श्री भगवान (जेसी-755030के), 01 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार सुरेश चन्द (जेसी-755031एम), 04 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार कर्पोर (जेसी-755033एक्स), 03 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-755034ए), 01 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार सत्य देव प्रसाद पाल (जेसी-755102एच), 07 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार उत्तम चन्द राणा (जेसी-755103एल), 01 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार विनेदर सिंह यादव (जेसी-755104एन), 01 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार सत्य नारायण (जेसी-755106वाई), 01 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

सूबेदार (डी डब्ल्यू) के रैंक में

नायब सूबेदार जयबोर सिंह (जेसी-759380एन), 03 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार ओम प्रकाश सिंह (जेसी-759382वाई), 11 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार बिजेन्द्र कुमार पाल (जेसी-759384के), 11 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार फूल सिंह (जेसी-759385एम), 08 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार सुमेर सिंह यादव (जेसी-759387एक्स), 07 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार मनोरंजन वर्षन (जेसी-759388ए), 05 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार रामजी प्रसाद (जेसी-759389एच), 02 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार बहादुर पांडा (जेसी-759439एच), 08 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-759440एक्स), 08 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार पूरन सिंह (जेसी-759441ए), 07 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार संतोष कुमार (जेसी-759443एल), 07 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार बानू लाल (जेसी-759450एफ), 03 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार अक्षय कुमार (जेसी-759456एच), 04 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार श्री कृष्ण आधेल (जेसी-759457एल), 16 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार राम चरन (जेसी-759562एफ), 05 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

#### सूबेदार (आरटी) के रैक में

नायब सूबेदार चन्द्र भूषण पाण्डे (जेसी-752831ए), 14 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

#### सूबेदार (एसकैटी) के रैक में

नायब सूबेदार धरमेन्द्र सिंह (जेसी-755100एक्स), 08 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार सुरेश धूब आर (जेसी-755101ए), 05 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

#### सूबेदार (टेक) के रैक में

नायब सूबेदार येघराज तंवर (जेसी-757109एल), 03 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007\*

नायब सूबेदार जीवन राम सेवदा (जेसी-757498डब्ल्यू), 08 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार धर्म राज सिंह (जेसी-757228एफ), 20 जुलाई 2007/01 जून 2007\*

नायब सूबेदार गोपेश कुमार बिल्ह (जेसी-757392के), 09 अगस्त 2007/01 जुलाई 2007\*

नायब सूबेदार अर्जुन सिंह (जेसी-757748एम), 16 नवम्बर 2007/01 अक्टूबर 2007\*

नायब सूबेदार रंजीत सिंह शिशोदिया (जेसी-757593एच), 17 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007\*

नायब सूबेदार गी सोनी वासगत (जेसी-757594एल), 14 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007\*

नायब सूबेदार एम एन शिव कुमार (जेसी-757822एच), 13 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007\*

नायब सूबेदार केवर चुद्धिमान सिंह (जेसी-757876के), 31 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007\*

नायब सूबेदार रवीन्द्र सिंह (जेसी-757877एम), 15 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007\*

नायब सूबेदार सुनेन्द्र सिंह (जेसी-757486एफ), 20 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007\*

नायब सूबेदार हरी प्रसाद यादव (जेसी-757634एफ), 19 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007\*

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-757635के), 15 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007\*

नायब सूबेदार आनंद सिंह (जेसी-757638एक्स), 15 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007\*

नायब सूबेदार इन्द्र पाल (जेसी-757488एम), 01 जनवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

नायब सूबेदार सुदर सिंह (जेसी-757641एक्स), 20 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007\*

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह शर्मा (जेसी-757490के), 14 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007\*

नायब सूबेदार जसवन्त सिंह (जेसी-757643एच), 04 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार अविनाश कुमार (जेसी-757491एम), 08 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार संतोष कुमार (जेसी-757644एल), 08 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार उदाल सिंह यादव (जेसी-757648एफ), 07 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार दिवाकरन के (जेसी-757500एच), 05 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार त्रिपेन चन्द्र मालाकर (जेसी-757650चार्ड), 01 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार प्रवीन कुमार बांग (जेसी-757651एफ), 05 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नायब सूबेदार गोपी नानन सी (जेसी-757653एम), 07 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

#### सूबेदार टेक (एवीएन) के रैक में

नायब सूबेदार जान आनंद झंगझंगा (जेसी-757399एन), 21 नवम्बर 2007/01 अगस्त 2007\*

नायब सूबेदार मदन किशोर सिंह (जेसी-757853एच), 08 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007\*

नायब सूबेदार योश चन्द्र गुरुता (जेसी-757841एन), 05 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

\*(पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है)।

हवलदार से नायब सूबेदार टेक (ए ल्हीकल) के रैक में

दिनेश कुमार शर्मा (सं 14580629पी अब जेसी-762051एच), 31 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

कुमार कामले (सं 14620671जाई अब जेसी-762019एन), 25 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

राजू के (सं 14608706एक्स अब जेसी-762054डब्ल्यू), 02 फरवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

रंजीत सिंह (सं 14619871एच अब जेसी-762012के), 01 फरवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक (बी छोकल) के रैक में

अलगौड़ा (सं 14598610वाई अब जेसी-761989के), 28 जनवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

अरुण प्रताप (सं 14599036एक्स अब जेसी-761992के), 31 जनवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

बैद्य नाथ राय (सं 14597275एन अब जेसी-761991एफ), 28 जनवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

विनोद कुमार झा (सं 14594307ए अब जेसी-761983एच), 31 जनवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

ब्रह्मनंद देहुरे (सं 14598300एन अब जेसी-761956वाई), 30 जनवरी 2008/09 दिसम्बर 2007\*

दयाकृशन भट (सं 14595628के अब जेसी-761984एल), 28 जनवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

दुश्सना दहै (सं 14604105री अब जेसी-762006डब्ल्यू), 01 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

गणेश कुमार (सं 14612163एन अब जेसी-762045र्णा), 30 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

जे सहाय राज (सं 14586138र्णी अब जेसी-761970एल), 01 फरवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

जय राम कंवर (सं 14610401डब्ल्यू अब जेसी-762041वाई), 31 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

जितेन्द्र कुमार (सं 14608134एफ अब जेसी-761957एफ), 31 जनवरी 2008/30 नवम्बर 2007\*

कमल कुमार गुरुंग (सं 14598405एक्स अब जेसी-761988एफ), 29 जनवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

मुख्तार सिंह (सं 14584347एन अब जेसी-761969डब्ल्यू), 29 जनवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

फिलिप के ए (सं 14602335के अब जेसी-761999एन), 01 फरवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

राम स्वस्य प्रसाद (सं 14581892एम अब जेसी-761966एच), 02 फरवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

रमेश कुमार सिंह (सं 14602832एन अब जेसी-762002ए), 01 फरवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

रत्न सिंह (सं 14608809डब्ल्यू अब जेसी-762033ए), 31 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

जाम दिन (सं 14603144एफ अब जेसी-762003एच), 02 फरवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

सुनील कुमार लक्ष्मण (सं 14582522वाई अब जेसी-761967एल), 01 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007\*

तिवारी अनिल कुमार रामनाथ (सं 14607661डब्ल्यू अब जेसी-762026के), 30 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

विपिन कुमार शर्मा (सं 14583070एन अब जेसी-761968एन), 29 जनवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक (कम्प्यूटर) के रैक में

धौरेन्द्र सम्मल (सं 14618089एन अब जेसी-762057के), 01 फरवरी 2008/01 अक्टूबर 2007\*

खण्डेश कुमार (सं 14615322एल अब जेसी-762065एच), 29 जनवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

कुंभार विठ्ठल धीमराव (सं 14614831एक्स अब जेसी-762056एफ), 25 जनवरी 2008/02 जितम्बर 2007\*

प्रताप महाखुड़ (सं 14615922एन अब जेसी-762066एल), 30 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

प्रेम शंकर यादव (सं 14617316एल अब जेसी-762069वाई), 01 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008\*

राजेश कुमार (सं 14614719एल अब जेसी-762059र्णी), 01 फरवरी 2008/01 नवम्बर 2007\*

रामेश कुमार (सं 14616178एन अब जेसी-762061एम), 26 जनवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक (सी छोकल) के रैक में

खलोल अहमद (सं 14611228के अब जेसी-761962एम), 01 फरवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

\*(पिछली तारोंमें वर्तायक ही जाती है।)

हवलदार से नायब सूबेदार टेक (ए छोकल) के रैक में

ए पुरुषोधमन (सं 14608720के अब जेसी-762055वाई), 01 फरवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

अजय कुमार पांडे (सं 14620554एन अब जेसी-762017एच), 02 फरवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

दिलबाग सिंह (सं 14572725र्णी अब जेसी-762048एच), 18 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

हरभान सिंह गौर (सं 14579305एक्स अब जेसी-762049एन), 02 फरवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नंदा चन्द्र विश्वास (सं 14630672एफ अब जेसी-762020एच), 04 फरवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

नरोलम कुमार झा (सं 14607225वाई अब जेसी-762053एन), 02 फरवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

प्रकाश चंद सैनी (सं 14620409 अब जेसी-762011एफ), 01 फरवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

रहोश प्रसाद यादव (सं 14619979ए अब जेसी-762014ए), 31 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

संजय कुमार (सं 14604059डब्ल्यू अब जेसी-762015एक्स), 09 फरवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

सत्यवीर (सं 14619976एम अब जेसी-762013एम), 01 फरवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक (बी व्हीकल) के रैक में

अमरेन्द्र कुमार सिंह (सं 14601409एफ अब जेसी-761998एल), 30 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

अनिलध चतुर्वेदी (सं 14608848पी अब जेसी-762030एप), 31 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

अवधेश कुमार शर्मा (सं 14591821वाई अब जेसी-761980पी), 21 जनवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

शीम राम कुमार (सं 14593298एक्स अब जेसी-761982ए), 05 फरवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

मधु सुखनन घिल्लै के (सं 14602343एच अब जेसी-762000पी), 04 फरवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

महराज सिंह (सं 14587163ए अब जेसी-761972डब्ल्यू), 05 फरवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

मनि शंकर राय (सं 14611286एन अब जेसी-761978एक्स), 07 फरवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

मुकेश चंद्र शर्मा (सं 14611477एच अब जेसी-761979ए), 02 फरवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

नरदीप सिंह (सं 14398211पी अब जेसी-761986डब्ल्यू), 04 फरवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

प्रभात कुमार जेना (सं 14597314एफ अब जेसी-761993एम), 24 जनवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

प्रेमानंद नंदा (सं 14606130एम अब जेसी-762007वाई), 01 फरवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

रजनी कात सिंह (सं 14598509वाई अब जेसी-761987वाई), 30 जनवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

शंकर दास (सं 14612266एम अब जेसी-761958के), 29 जनवरी 2008/04 नवम्बर 2007\*

श्यामवीर (सं 14609191पी अब जेसी-762034एच), 17 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

सुरेन्द्र बस्तवाद (सं 14608923एन अब जेसी-761974एक्स), 04 फरवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

चुल्फकार अहमद (सं 14608880के अब जेसी-762032एक्स), 01 फरवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक (कम्प्यूटर) के रैक में

बो कृष्ण राव (सं 14616831डब्ल्यू अब जेसी-762063एक्स), 01 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007\*

दिनेश कुमार (सं 14603931एच अब जेसी-762053एम), 03 फरवरी 2008/01 अक्टूबर 2007\*

शेखरा नंद जोशी (सं 14616629एच अब जेसी-762067एन), 22 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक (सी व्हीकल) के रैक में

बाबू लाल (सं 14612897पी अब जेसी-761963पी), 02 फरवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

देवी प्रसाद दास (सं 14612904ए अब जेसी-761964एक्स), 30 जनवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

श्री दुश्यन्त सिंह (सं 14609313एन अब जेसी-761961के), 01 फरवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

सुमेर सिंह (सं 14583026के अब जेसी-761960एफ), 04 फरवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

\*(पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।)

हवलदार से नायब सूबेदार (आरमोर) के रैक में

देव राज राम (सं 14552772एल अब जेसी-761795के), 01 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007\*

हवलदार से नायब सूबेदार ए वी एफ (एएफ) के रैक में

गुरा भास्करा राव (सं 14604708एल अब जेसी-761807एल), 27 नवम्बर 2007/01 अक्टूबर 2007\*

जगदीश चन्द (सं 14607444ए अब जेसी-761808एन), 19 दिसम्बर 2007/01 नवम्बर 2007\*

हवलदार से नायब सूबेदार एवोएफ (ईएलई) के रैक में

प्रेम कुमार मिश्रा (सं 14553068एफ अब जेसी-761814एफ), 08 दिसम्बर 2007/01 अक्टूबर 2007\*

हवलदार से नायब सूबेदार धवीएफ (आईएनपी) के रैक में

रघुनन्दन सिंह (सं 14593682वाई अब जेसी-761851पी), 01 जनवरी 2008/01 अगस्त 2007\*

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) के रैक में

दाल चंद (सं 14568382एम अब जेसी-761827वाई), 17 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007\*

दया शंकर सिंह यादव (सं 14568364के अब जेसी-761826डब्ल्यू), 24 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007\*

पन्कजेश्वर प्रसाद सिंह (सं. 14567675एल अब जेसी-761828एफ),  
19 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007\*

विनोद कुमार शर्मा (सं. 14568246डब्ल्यू अब जेसी-761825एन),  
19 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007\*

वंजीर सिंह (सं. 14568241एक्स अब जेसी-761824एल), 21 दिसम्बर  
2007/01 नवम्बर 2007\*

हवलदार से नायब सूबेदार ई ई मेक के रैंक में

आजाद सिंह (सं. 14556283एक्स अब जेसी-761802एम),  
28 दिसम्बर 2007/01 अक्टूबर 2007\*

हवलदार से नायब सूबेदार इलेक्ट (एएफवी) के रैंक में

मनिकन्दन चौ (सं. 14557496एक्स अब जेसी-761850एम),  
27 दिसम्बर 2007/01 नवम्बर 2007\*

हवलदार से नायब सूबेदार इलेक्ट (एमवी) के रैंक में

लग्नोदर साह (सं. 14545888वाई अब जेसी-761820ए), 17 दिसम्बर  
2007/07 अक्टूबर 2007\*

हवलदार से नायब सूबेदार इन्स्ट्रमेन्ट मेक के रैंक में

सुरेश कुमार (सं. 14563730वाई अब जेसी-761819ए), 19 दिसम्बर  
2007/01 दिसम्बर 2007\*

हवलदार से नायब सूबेदार मेटल स्पिंथ के रैंक में

अतार सिंह गुजर (सं. 14552257वाई अब जेसी-761816एम),  
12 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007\*

हवलदार से नायब सूबेदार पेन्टर और डेकोरेटर के रैंक में

रवीन्द्र सिंह कुम्हाव (सं. 14549272एच अब जेसी-761817ए),  
06 दिसम्बर 2007/01 दिसम्बर 2007\*

हवलदार से नायब सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में

अनमोल कुमार सिंह (सं. 14545930एम अब जेसी-761787एच),  
26 नवम्बर 2007/01 अक्टूबर 2007\*

हवलदार से नायब सूबेदार टीसीएम (रेडार) के रैंक में

इन्द्र छरूआ (सं. 14563032डब्ल्यू अब जेसी-761852एक्स), 04  
जनवरी 2008/01 जनवरी 2008\*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक (एईएफ) के रैंक में

बलिराध शर्मा (सं. 14585692एन अब जेसी-761777वाई), 27 नवम्बर  
2007/01 नवम्बर 2007\*

गौतम कक्काटी (सं. 14566327एक्स अब जेसी-761772ए), 19 नवम्बर  
2007/01 अक्टूबर 2007\*

जितेन्द्रा बहादुर सिंह (सं. 14576500के अब जेसी-761776डब्ल्यू),  
30 अक्टूबर 2007/01 अक्टूबर 2007\*

परम हन्म यादव (सं. 14574227एफ अब जेसी-761774एल),  
19 नवम्बर 2007/01 अक्टूबर 2007\*

राम कुमार चौहान (सं. 14569830ए अब जेसी-761771एक्स),  
19 नवम्बर 2007/01 अक्टूबर 2007\*

सुरेश कुमार टी चौ (सं. 14567254एच अब जेसी-761773एच),  
21 नवम्बर 2007/01 अक्टूबर 2007\*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक (ए वी एफ) के रैंक में  
के बालसुब्रमण्यम (सं. 14618009एल अब जेसी-761823एच),  
26 नवम्बर 2007/01 अक्टूबर 2007\*

मस्तान कथाट (सं. 14617551यी अब जेसी-761822ए), 16 नवम्बर  
2007/01 अक्टूबर 2007\*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक ई एल एफ के रैंक में  
दयानंद (सं. 14565539डब्ल्यू अब जेसी-761779के), 05 नवम्बर  
2007/01 अक्टूबर 2007\*

प्रह्लाद सिंह (सं. 14577029एफ अब जेसी-761781एफ), 12 नवम्बर  
2007/01 अक्टूबर 2007\*

राम प्रीत गय (सं. 14606218डब्ल्यू अब जेसी-761782के), 05 नवम्बर  
2007/01 अक्टूबर 2007\*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक आरमोर के रैंक में  
के सुद्रमनियम (सं. 14609570एल अब जेसी-761813वाई),  
20 दिसम्बर 2007/01 अक्टूबर 2007\*

किना बिल्लाल (सं. 14608251एम अब जेसी-761812डब्ल्यू),  
29 नवम्बर 2007/01 अक्टूबर 2007\*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक (बी क्लोकल) के रैंक में  
अनिल कुमार ए चौ (सं. 14600841डब्ल्यू अब जेसी-761663एन),  
21 जुलाई 2007/01 जुलाई 2007\*

बलविन्दर लाल (सं. 14583971ए अब जेसी-761836ए), 25 दिसम्बर  
2007/01 फरवरी 2007\*

बिल्लब मन्डल (सं. 14611496एन अब जेसी-761841एल),  
22 दिसम्बर 2007/01 मई 2007\*

बासी राम पीठा (सं. 14593401एक्स अब जेसी-761843डब्ल्यू),  
20 दिसम्बर 2007/01 जुलाई 2007\*

हरे शंकर सिंह (सं. 14610343एक्स अब जेसी-761846के),  
02 जनवरी 2008/08 जुलाई 2007\*

जयबीर सिंह (सं. 14607159एफ अब जेसी-761845एफ), 26  
दिसम्बर 2007/08 जुलाई 2007\*

ललत सिंह (सं. 14612810एच अब जेसी-761835एक्स), 02 जनवरी  
2008/01 जुलाई 2007\*

नरपति सिंह चौहान (सं. 14591776एक्स अब जेसी-761842एन),  
24 दिसम्बर 2007/01 जुलाई 2007\*

रवीन्द्र कुमार (सं. 14606783एन अब जेसी-761838एल),  
20 दिसम्बर 2007/01 मार्च 2007\*

शंकर भट्टाचार्य (सं. 14606527वाई अब जेसी-761837एच),  
20 दिसम्बर 2007/07 अक्टूबर 2007\*

इथामल सिंह (सं. 14611468एफ अब जेसी-761840एच),  
22 दिसम्बर 2007/07 अक्टूबर 2007\*

केसपोगु विजया कुमार (सं. 14596651के अब जेसी-761844वाई),  
24 दिसम्बर 2007/01 जुलाई 2007\*

विल्सन के बी (सं. 14609846डब्ल्यू अब जेसी-761839एन),  
20 दिसम्बर 2007/01 मई 2007\*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक कम्प्यूटर के रैक में

अशोक कुमार कर्ष (सं. 14614823वाई अब जेसी-761805ए),  
01 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007\*

सुरेश सिंह यादव (सं. 14618156एन अब जेसी-761803पी),  
17 दिसम्बर 2007/01 अक्टूबर 2007\*

तुलसी दास एम (सं. 14618350एच अब जेसी-761804एक्स),  
08 दिसम्बर 2007/01 अक्टूबर 2007\*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक हलेक्ट के रैक में

आदेश सिंह (सं. 14592082के अब जेसी-761833एम), 24 दिसम्बर  
2007/01 अक्टूबर 2007\*

गोवर्धन प्रसाद (सं. 14608748के अब जेसी-761857डब्ल्यू),  
16 जनवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

जे राजारामन (सं. 14583296वाई अब जेसी-761858वाई), 17 जनवरी  
2008/01 दिसम्बर 2007\*

जगदीश सिंह (सं. 14571529एच अब जेसी-761831एफ), 20 दिसम्बर  
2007/08 अप्रैल 2007\*

खन्दार भान (सं. 14606666एच अब जेसी-761856एन), 16 जनवरी  
2008/01 दिसम्बर 2007\*

किशोरी लाल (सं. 14609327एन अब जेसी-761860डब्ल्यू),  
16 जनवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

महीपाल (सं. 14596319एन अब जेसी-761859एफ), 16 जनवरी  
2008/01 दिसम्बर 2007\*

धोहिन्दर सिंह (सं. 14592451डब्ल्यू अब जेसी-761834पी),  
20 दिसम्बर 2007/01 अक्टूबर 2007\*

मुकुल पान्डे (सं. 14579932के अब जेसी-761832के), 19 दिसम्बर  
2007/08 अप्रैल 2007\*

संजय कुमार सिंह (सं. 14598449पी अब जेसी-761853ए), 18 जनवरी  
2008/01 दिसम्बर 2007\*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक इन्स्ट्रुमेंट के रैक में

चलान दत्तात्रय नामदेव (सं. 14614920डब्ल्यू अब जेसी-761810एल),  
06 दिसम्बर 2007/01 अक्टूबर 2007\*

धरमेन्द्र सिंह (सं. 14615007पी अब जेसी-761811एन), 10 दिसम्बर  
2007/01 नवम्बर 2007\*

सोमनाथ मुखर्जी (सं. 14598862एल अब जेसी-761809डब्ल्यू),  
24 नवम्बर 2007/01 अक्टूबर 2007\*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक (आर औ) के रैक में

नन्दलाल गौड़ा (सं. 14597014ए अब जेसी-761866एक्स),  
12 जनवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

नर्थू सिंह (सं. 14590175ए अब जेसी-761865पी), 16 जनवरी  
2008/01 दिसम्बर 2007\*

पवार भरत नवरत्नी याद (सं. 14602187के अब जेसी-761867ए),  
24 जनवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

राम चन्द्र (सं. 14616457वाई अब जेसी-761871एच), 12 जनवरी  
2008/01 दिसम्बर 2007\*

रतन सिंह चौहान (सं. 14573793पी अब जेसी-761862एफ),  
22 जनवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

सजीद एस (सं. 14616959एफ अब जेसी-761874डब्ल्यू), 22 जनवरी  
2008/01 दिसम्बर 2007\*

शिव कुमार यादव (सं. 14579070डब्ल्यू अब जेसी-761863के),  
16 जनवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

स्थाम सिंह (सं. 14616168के अब जेसी-761869एल), 21 जनवरी  
2008/01 दिसम्बर 2007\*

हवलदार से नायब सूबेदार अपकोलिस्टर के रैक में

प्रभाकरन नायर (सं. 14563867एल अब जेसी-761687एफ),  
01 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008\*

हवलदार से नायब सूबेदार ची एम (एफकी) के रैक में

एम यध्यन (सं. 14558757एम अब जेसी-761848पी), 01 जनवरी  
2008/01 जनवरी 2008\*

सतीश चन्द्र शर्मा (सं. 14544423एम अब जेसी-761818एक्स),  
15 दिसम्बर 2007/01 नवम्बर 2007\*

हवलदार से नायब सूबेदार बेल्डर के रैक में

देव बलादुर सिंह (सं. 14549997एच अब जेसी-761768एक्स),  
19 नवम्बर 2007/01 अक्टूबर 2007\*

\*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।

राजेन्द्र चतुर्वेदी  
अवर सचिव

सेना शाखा

राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय

सं. 328, दिनांक 19 जून 2008-- राष्ट्रपति, महोदय, स से सु सिद्धिल  
सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अंतर्गत सशस्त्र सेना मुञ्जालय सिद्धिल  
सेवा की श्रीमती जसबीर कौर चाहला, सहायक को स्थानापन अनुभाग

अधिकारी (शुप-बी, राजपत्रित) (वेतनमान रु. 6,500-200-10,500) के रूप में दिनांक 03 अप्रैल 2008 से 23 अगस्त 2008 तक अथवा उनके सेवानिवृत्त होने तक अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक के समय में से जो भी पहले हो उस समय तक नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति पूर्णतः कामचलाऊ आधार पर है तथा प्रशासनिक कारणों अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर विना सूचना दिये समाप्त की जा सकती है।

3. अनुभाग अधिकारी के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकारी का कोई दावा नहीं होगा और न ही नियम 7(8) के अधीन स्थानापन अनुभाग अधिकारी के रूप में उनकी सेवा को उक्त ग्रेड में वरिष्ठता के लिए माना जाएगा।

शंकर सिंह  
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (ए)

वायु सेना

सं. 329, दिनांक 20 जून 2008--राष्ट्रपति निम्नलिखित मूल पदोन्नतियां करते हैं:-

भारतीय वायुसेना

मूल फ्लाइंग अफसर से मूल फ्लाइट लेस्टिनेट रैंक में पदोन्नति

पी पांडा (27726), ए दुआ (27727), डी क्ली ल्यागो (27728), जे एस सुमी (27729), ए अवस्थी (27730), बी बाहुबली (27731), एम एस कबाबत (27732), ए ए स्वामी (27733), ची नारायण (27734), एस सी सिंह (27735), डी पांडा (27736), एस कुमार (27737), ए पी रेड्डी (27738), ए के सारस्वत (27739), बी बी बालिगा (27740), एस नायक (27741), पी पाल (27742), आर सांगवान (27743), ए यादव (27744), डी पेंजालीरा (27746), एस एस नैन (27747), ए शर्मा (27748), शी बी मारवाड़कर (27749), एस मनमाधन (27750).

--दिनांक 20 दिसम्बर 2005 से प्रभावी

संभासिकी शाखा

बी एस देशपांडे (27751), आर कुरियन (27752), पी उपाध्याय (27753), पी क्ली झा (27754), डी शर्मा (27755), पी केरे (27756), जी पी सेल्वारलम (27757), एन चनियाल (27758), एस पस्तान (27759), आर एन एम त्रिपाठी (27760), एस के दास (27761), एस जोस (27763), जे पी पुलिकेशी (27764)

--दिनांक 20 दिसम्बर 2005 से प्रभावी

लेखा शाखा

एस शर्मा (27765), एम साहू (27766), एस एस जी नव्यर (27767), ए सलॉट (27768), बी गुप्ता (27769), ए शिवहरे (27770), के संरीप राव (27771),

--दिनांक 20 दिसम्बर 2005 से प्रभावी

प्रशासनिक शाखा

एस राजकुमार (28038), आर के चौहान (28039), एच सिंह (28040), एस शर्मा (28041), एस विज्वास (28043), एन साजित कुमार (28044), जी बी आर राजू (28045), एन पी कुमार (28046), ए दुबे (28047), बी देशमुख (28048), बी शिवकुमार (28049), ए राणा (28050), जे सिंह (28051), डी ल्यागो (28052), पी कुमार (28053), एस याकूब अली (28054), एस के पाल (28055), बी गवत (28056), एस कौड़ाला राव (28057), ए एस कलसी (28058), एस के महाला (28060), एस श्रीजित (28061), सी प्रकाश (28062), के एच जाना (28063), एस कुमार (28064), बी चौपड़ा (28065), बी जाधव (28066), आर कुमार (28067), बी प्रशांत (28068)

--दिनांक 19 जून 2006 से प्रभावी

लेखा शाखा

डी हुड़ा (28069), पी सिंह (28070), ए मुख्जी (28071), एस एस मिश्रा (28072), डी बी एम एस बिल्डल (28073), एम संगवान (28074), आर राजेश (28075), एस एन चुमारे (28076), ए भुव्वलर (28077).

--दिनांक 19 जून 2006 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

आर शर्मा (28078), बी आर गोडबोले (28079), आर अर्जीत (28080), सी एस भानुप्रकाश (28081), एस षण्मुख (28082)

--दिनांक 19 जून 2006 से प्रभावी

मीसम विज्ञान शाखा

एन निशांत (27191), एच सिंह (27631), जी ए एम बासो (28083)

दिनांक 19 जून 2006 से प्रभावी

उड़ान (पायलट) शाखा

आर नंदा (27686), बी श्रीवस्तव (27687), यू कुमार (27689), ए निपाती (27690), पी राणा (27691), एम भार्गव (27692), बी अब्बाहम (27693), एन पी बर्मा (27694), एम भाटिया (27695), एस प्रशांत (27696), ए बी ब्रासने (27697), पी बी सिंह (27699), पी पी पाटिल (27700), एम के छिल्लर (27701), ए एस माइनकर (27702), जी एम पालेकर (27703), एस शर्मा (27705), पी के जोशा (27706), एम अरोहा (27707), बी कल्याणी (27708), एम पी मिंह (27709), एस मित्रा (27710), डी बी औताडे (27711), ए बी कोलहे (27712), एस काबड़ा (27713), बी जय गणेश (27714), आइ सिंह (27715), बी पुरी (27716), एस शर्मा (27717), डी कहुस्कर (27719), डी यागर (27721), एस सिंह (27722), ए विश्वोई (27723), ए गुरुता (27724),

--दिनांक 20 दिसम्बर 2005 से प्रभावी

यू पीसिंह (27948), पी दीक्षित (27950), ए धोपावकर (27951), बी विजयराघवन (27952), ए भारद्वाज (27953), सी शर्मा (27954), एस रघुवंशी (27955), ए के सिंह (27956), पी सारथी (27957), ए कुमार (27958), एन एस पवार (27959), बी आरुणी (27960), ए यादव (27961), एस धीर (27962), एम चारुचान (27963), एस के सिंह (27964), के राजपूत (27965), जे सिंह (27967), एन अभिषेक (27968), ए देसवाल (27969), वाई फारुकी (27970), ए विज़ (27971), एस सिंह (27972), बी कक्कर (27973), एम यू शर्मा (27975), एम के सिंह (27976), एन के तिकारी (27977), जी सिंह (27978), एस के मिश्रा (27979), एम एस सांगवान (27980), बी अभिनन्दन (27981), ए शर्मा (27982), एस अरोड़ा (27983), एस पी गोरे (27985), जी अतुर्वंदी (27986), बी सिंह (27987), बी औ एस के जेनापणि (27988), ए के डोगरा (27989), के एस एच एस सिंह (27990), आर राय (27992), आर शर्मा (27993), एम एस विजेश (27994), के अर्हा (27995), ए एस पवार (27996), ए ड्यूगर (27997), जे एस संसु (27998), ए रेप्सकाल (27999), ए सबसेना (28000), ए सिंह (28002), एन नागरकोटी (28003), ए महापात्रा (28004), ए रंजन (28005), एस अग्रवाल (28006), आर चट्टोपाध्याय (28007), एच सिन्हा (28009), डी पंकज (28010), टी जे रंजीत (28011), वाई एस पंकार (28012), एस के प्रधान (28013), जे एस विरदी (28015), ए बी पालपुरे (28016), लक्ष्मीवीर (28017), ए सिंह (28019), ए दवे (28022), आर गुप्ता (28024), एम पी खैरपार (28026), एस निहावान (28028), एन बी कुमार (28029), एस सिरोही (28030), आर वर्मा (28031), जे एस सुदन (28032), एस के यादव (28034), आर छोगरा (28035), ए कपूर (28036)

--दिनांक 19 जून 2006 से प्रभावी

#### वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक) शाखा

जी बी हेंगड़े (27813)

--दिनांक 19 दिसम्बर 2005 से प्रभावी

#### वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिकी) शाखा

आर एन गुप्ता (27817)

--दिनांक 03 जनवरी 2006 से प्रभावी

बी अतुर्वंदी(27818)

--दिनांक 18 जनवरी 2006 से प्रभावी

एच के शर्मा (27814), सी शर्मा (27815), एस के सिंह (27816)

--दिनांक 19 दिसम्बर 2005 से प्रभावी

#### प्रशासनिक शाखा

एम के मिश्रा (27819), एम के सिंह (27820)

--दिनांक 20 दिसम्बर 2005 से प्रभावी

#### संभारिकी शाखा

एन के सिंह (27821)

--दिनांक 20 दिसम्बर 2005 से प्रभावी

#### शिक्षा शाखा

बी कृष्णपन (27822), यू के प्रभाणिक (27823)

--दिनांक 20 दिसम्बर 2005 से प्रभावी

#### वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिकी) शाखा

टी एस मेनन (28135)

--दिनांक 14 जुलाई 2005 से प्रभावी

#### उड़ान (मार्गनिर्देशन) शाखा

के भट्टाचार्या (27688), आर पांडेय (27698), ए गुरु (27704), ए के सिंह (27718), बी धर (27720)

--दिनांक 20 दिसम्बर 2005 से प्रभावी

एस दत्ता (27949), एस शर्वचन्द (27974), डब्ल्यू एस सिंह (27984), एन सिंह (28014), एस मिश्रा (28018), एच दिवारी (28020), के कपूर (28023)

--दिनांक 19 जनवरी 2006 से प्रभावी

#### अल्पकालिक सेवा कमीशन

मूल फ्लाइंग अफसर से मूल फ्लाइट लॉफिल्टर रैक में पदोन्नति

#### उड़ान पायलट शाखा

(सुश्री) रुपिन्दर दीप कौर सोही (27772), (सुश्री) शालीजा थापी (27773)

--दिनांक 20 दिसम्बर 2005 से प्रभावी

(सुश्री) एस के भर्तीन (28084), (सुश्री) एन हुड्डा (28085), (सुश्री) ए आर भागांवकर (28086)

--दिनांक 19 जनवरी 2006 से प्रभावी

#### प्रशासनिक शाखा

(सुश्री) बी पवनिया (27810)

--दिनांक 06 जनवरी 2006 से प्रभावी

(सुश्री) ज्योत्सना रेतु (27774), (सुश्री) नीतू कपूर (27775), (सुश्री) दिव्या यादव (27776), (सुश्री) सोनम बक्शी (27777),

(सुश्री) आर फहीमा अफजल (27778), (सुश्री) मोनिका मिश्रा (27779), (सुश्री) सुमिता पौल (27780), (सुश्री) गंगेशी गंगूली (27781), (सुश्री) स्वर्सित चर्मा (27782), (सुश्री) एलिजाबेथ आर करुणाकरण (27783), (सुश्री) दीपिका सिंह (27784)

दिनांक 20 दिसम्बर 2005 से प्रभावी  
संभारिकी शाखा

(सुश्री) एस कर (27811)

--06 जनवरी 2006 से प्रभावी

(सुश्री) डॉ रानी (27785), (सुश्री) पी टो गजलक्ष्मी (27786), (सुश्री) सोनी शर्मा (27787), (सुश्री) अवधि (27788), (सुश्री) बीनू डत्तनिधन (27789), (सुश्री) श्वेता भट्टा (27790), (सुश्री) ममता कुमारी (27791), (सुश्री) उमा आंगा (27792), (सुश्री) पल्लवी लाप्पी (27793), (सुश्री) भावना सिंह (27794), (सुश्री) एकता कपूरिया (27795), (सुश्री) प्रियंका बौहान (27796), (सुश्री) डॉमिला कुमारी (27797), (सुश्री) रेखा (27798), (सुश्री) अपराजिता कुमारी (27799), (सुश्री) नीतू सहरावत (27800), (सुश्री) प्रियंका सक्सेना (27801), (सुश्री) बैशाली बनर्जी (27802),

--दिनांक 20 दिसम्बर 2005 से प्रभावी  
लेखा शाखा

(सुश्री) शिशा गर्ग (27803), (सुश्री) नित्या बालासुब्रमण्यम (27804), (सुश्री) विष्णुपदा पांडेय (27805), (सुश्री) रमनदीप कौर चिक्क (27806), (सुश्री) चंचल गौहलोत (27807), (सुश्री) पूनम शर्मा (27808), (सुश्री) के बासवी (27809)

--दिनांक 20 दिसम्बर 2005 से प्रभावी

प्रशासनिक शाखा

(सुश्री) एन सेनापति (28087), (सुश्री) बी कीशल (28088), (सुश्री) जौ टी ए लिंगदोह (28089), (सुश्री) ए धालीबाल (28090)

--दिनांक 19 जून 2006 से प्रभावी

लेखा शाखा

(सुश्री) एस जग्गी (28091), (सुश्री) एम अर्जिहेंगो (28092), (सुश्री) एस दीक्षित (28093), (सुश्री) बी अहलूवालिया (28094), (सुश्री) ए श्रीवास्तव (28095), (सुश्री) एम थीमस (28096), (सुश्री) आर पाटिल (28097), (सुश्री) ए चतुर्वेदी (28098)

--दिनांक 19 जून 2006 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

(सुश्री) एस एल चन्द्रेल (28099), (सुश्री) एस पालराज (28100), (सुश्री) एस श्रीकला (28101), (सुश्री) एस रानी (28102), (सुश्री) बी डी मास्टर (28103)

--दिनांक 19 जून 2006 से प्रभावी

मैसम विज्ञान शाखा

(सुश्री) पी विल्डियाल (27632), (सुश्री) एस शहनवाज (27633)  
दिनांक 19 जून 2006 से प्रभावी

वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिकी) शाखा

(सुश्री) पी पाण्डेय (27623), (सुश्री) जी तेजस्विनी (27624)  
दिनांक 07 जुलाई 2005 से प्रभावी

वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिकी) शाखा

(सुश्री) एम बी कैस्टेलिनो (27625), (सुश्री) एम एस पूर्णम (27626), (सुश्री) सोमा बिट्टू (27627), (सुश्री) अल्का पाण्डेय (27628)  
दिनांक 07 जुलाई 2005 से प्रभावी

वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिकी) शाखा

(सुश्री) एम परेता (28168)

दिनांक 05 जनवरी 2006 से प्रभावी

वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिकी) शाखा

(सुश्री) सपना एन देशमुख (28138), (सुश्री) डी शुभ बाणी (28139), (सुश्री) ए आरती (28140)

--दिनांक 05 जुलाई 2006 से प्रभावी

वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिकी) शाखा

(सुश्री) जी जयशीला (28165)

दिनांक 10 जुलाई 2006 से प्रभावी

वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिकी) शाखा

(सुश्री) ए रे (28141), (सुश्री) एस गायत्री (28142), (सुश्री) बी धारीबाल (28143), (सुश्री) एल शर्मा (28144), (सुश्री) एम एस गिरिजा देवी (28145), (सुश्री) एस शेट्टी (28146), (सुश्री) आर चौधरी (28147), (सुश्री) एस सोंसंजिगीरी (28148), (सुश्री) पी डो रंधारा (28149), (सुश्री) एन चुरी (28150), (सुश्री) ए एम विल्मा (28151), (सुश्री) बी ए एंटो गाइती सुहान्ना (28152), (सुश्री) आर मंत्रो (28153)

दिनांक 05 जुलाई 2006 से प्रभावी

वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिकी) शाखा

(सुश्री) एन लिमा (28154)

--दिनांक 08 जुलाई 2006 से प्रभावी

वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिकी) शाखा

(सुश्री) आर जैत (28155), (सुश्री) पी भट्टचार्या (28164)

--दिनांक 09 जुलाई 2006 से प्रभावी

वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिकी) शाखा

(सुश्री) पी यादव (28166)

--दिनांक 10 जुलाई 2006 से प्रभावी

## चायुसेना

राष्ट्रपति निम्नलिखित मूल पदोन्नतियाँ करते हैं:—

भारतीय चायुसेना

अल्पकालिक सेवा कमीशन

मूल फ्लाइंग अफसर से मूल फ्लाइंट लेफ्टिनेंट रैक में पदोन्नति

वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिकी) शाखा

(सुनी) एम कौर (28167)

दिनांक 23 जुलाई 2006 से प्रभावी

ए इ एम शाखा

फ्लाइंग ऑफिसर से फ्लाइंट लेफ्टिनेंट के मूल रैक में

आर विश्वकर्मा (27825), ए मिश्रा (27826), एम नवाजन (27827), बी संजीव (27828), एम निखिल (27829), एच एस कोहर (27830), सीरभ मोहन (27831), गोपालकृष्ण देणु कुरुप (27832), बसिल आस्कर रेबिरो (27833), जाहागिरदर निलेश गोविंद (27834), अनिल कुमार (27835), नरेला विश्वनाथ (27836), शुभेश कुमार (27837), कमिलती श्री फणि कुमार (27838), हजारे मनोज रामराव (27839), डी ए नागेन्द्र (27840), युधवीर सिंह (27841), विशाल गोयल (27842), राजावतिनम कार्तिक (27843), नवराजन राजगोपालन (27845), समीर सुधीर देशमुख (27846), रामचन्द्रन प्रदीप (27847), शिशक चतुर्वेदि (27926), आनंद दत्त (27932), गोपाल जोशा (27933), सनिं व्यास (27934), जे जान (27998), पी लैन्डे (28299), ए के शर्मा (28301), और एन एस थोमस (27574)

--03 जनवरी 2005 से प्रभावी

ए इ एल शाखा

फ्लाइंग ऑफिसर से फ्लाइंट लेफ्टिनेंट के मूल रैक में

वाई अनन्त नारायण (27614), सुबादिप मैति (27622), पेरुसोमाला राधाकृष्णचार्या (27629), अधिनन्दन दास (27848), नवीन कुमार जपरम (27849), संदीप देवनाथ (27850), सम्पत कृष्णन मुथ्येल (27851), विक्रम छिक्कर (27852), पंकज कुमार पाठी (27853), तुषार रस्तोगी (27854), बनेहलंग दाखार गिरि (27855), अधिकेक सिंह (27856), भनीष कुमार वर्मा (27857), निमित कौश (27858), अनुपम कपूर (27859), नवन कुमार सेन (27860), रवि कुमार जनिया (27862), रविशंकर पाटिल (27863), अधिकेक त्यागी (27864), विनान खना (27865), नितिन बर्करी (27866), प्रसाद कल्यात तजातु कीतिल (27867), बलजीत सिंह आनन्द (27868), वैद्यनाथन मगेश (27869), विहांग प्रभोद नादकली (27871), किशोर राजु गविराजु (27872), सुधीर परमेश्वरन (27873), मनीष जलानी (27875), पी प्रमाणिक (27876), गिरित चन्द्र चत्पाल (27877), मेहुल गुप्ता (27878), मनीष रस्तोगी (27880), अश्राम जैकब (27881), एम चंद्रल (27882), अमरदीप सिंह (27883), रोहित आनंद (27884), राधाकृष्णन रविन्द्रनाथ सेतिल कुमार (27885), आशीष करन (27886), मनु गोपाल (27887), सुमित जार्मा (27888), दीपक कृष्णन द्रेपु (27889), गौरव हिंदेवी (27890), निशांत वर्मा (27891), अनिलन मैता (27892), के के गणेश (27893), डी मेल्लो प्रसिद्ध मैथ्यु (27894), उपरष्ट्य विद्यासागर लक्ष्मीया (27895), आर यशवंत राज (27896), अरुण सिंह (27897), एम धनसेकर (27898), मुकुल कैश्ता (27899), अद्वृत रेहमान (27900), श्रीकांत गी ए (27901), मनीष दाहिया (27902),

सचिन सदासिंह (27903), आशीष तिवारी (27904), लेजिन्दर सिंह भट्ट (27905), डी अरुण प्रसाद (27906), मर्जुन जाधव (27907), वित्सु मुमान विंसेट (27908), दिपितमान मुखिय भट्टाचार्य (27910), गौरव रामकृष्ण कर्मदिकार (27911), धर्म चौर (27912), चुदासमा नंदेंदासिंह जुवानसिंह (27913), सोश्रस्त्र कालरा (27914), चौगेश परिहार (27915), तरुण शक्ति दहिया (27916), सचिन टाम जौन (27917), अभिनव शुक्ला (27918), पृथ्वी राजीवेंह चौहान (27919), तुषार शौशी (27920), विनोद गर्ग (27921), सतीश कुमार पंड्यारी (27922), पुरन देव ओझा (27923), गिरीश कृष्णन (27925), सुशदीप नाथ (27928), किशनाथन रामचन्द्रन (27929), कल्लोल जोस (27930), कार्तिक सुब्रह्मण्यम (27931), एन एस पिल्लई (28302), सी श्रीकृष्णर (28303), एस मुख्यार्जी (28304), बी बनजी (28305), एम एन चैयी (28306), जी एम के नामचियार (28307), और एस नरायणन (27611)

--03 जनवरी 2005 से प्रभावी

फ्लाइंग ऑफिसर से फ्लाइंट लेफ्टिनेंट के मूल रैक में

एम दिल्लो बाबू (27316), ए के के वाई दास (27384), एम जे बालामूर्गन (27393), डी चादव (27346), बी कार्तिकेयन (27317), बी आर किशोर (27395), दी व्यास (27358), पी विल्स (27369), एस सतीश (27424), पी आनंद (27337), एम श्रीराम (27335), बी चलरी (27396), के किरन (27361), चू के प्रतीष कुमार (27336), जी पी सिंह (27311), पी अनिल कुमार (27431), बी चैतन्य (27356), पी अधिकेक (27362), आर मुरलीश्वरन (27383), के जयनन्दन (27413), आर अग्रवाल (27327), सी सो सी अतराज (27325), डी कृष्णार्जी (27117), एस गिरिधर (27355), एस सिंह (27364), एस राजेश (27351), आर संकरामन (27350), जी शुक्ला (27339), ए टुबे (27345), बी कार्तिक (27349), जे रविंद्रा (27329), जी प्रताप (27405), एम शर्मा (27313), एस बी सुविन कुमार (27321), प्रीतम कुमार (27340), पी के शर्मा (27322), के पी किरन कुमार (27317), एम कार्तिकेयन (27318), डी चर्मा (27412), जी शर्मा (27341), एस अहमद (27409), ए जो एन चैतन्य (27347), जे प्रशांत (27343), ए रामाकृष्णन (27410), बी चतुर्वेदी (27312), एस चाल्स (27348), पी चन्द्रशेखर (27938), पी के भारद्वाज (27944), एस रघवेन्द्रन (27939), पी एच कालास्कर (27945), जय प्रकाश (27940), क्षु एस एस हमरान उल्लाह (27941), बी पांडेय (27942), के राजेन्द्रन (27946), डी जौन (27947), और ए पर्लिक (27943)

--16 दिसंबर 2004 से प्रभावी

दी निर्मल (28300) 03 जनवरी 2005 से प्रभावी।

ए इ एम शाखा

फ्लाइंग ऑफिसर से फ्लाइंट लेफ्टिनेंट के मूल रैक में

एफ के पॉल (27510), एस पी गृहले (27572), एस बी पी नायर (27573), सी बी विक्टर (27577), चू गोविंदकृष्णन (27578), जी एस पल्लाह (27579), एन शिवशंकर (27581) और बी झी बेबी (27583)

--16 दिसंबर 2004 से प्रभावी

ए इ एल शाखा

फ्लाइंग ऑफिसर से फ्लाइंट लेफ्टिनेंट के मूल रैक में

ए तिवारी (27587), ए गोस्वामी (27592), एच थोमस (27594), ए जैन (27595), राकेश (27596), के सी गेडा (27598),

बी देब (27600), एस कुमार (27609), एम एम इंगले (27612), एम डी सीता (27616), पी सहा (27618), ए जानने (27620), ए हसन (27630) और एम गोविंदाशराजन (27634)

-- 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

एस श्रीवास्तव  
विंग कमांडर जेडीपीओ 3(डी)

(वित्त प्रभाग)

सं. 333, दिनांक 20 जून 2008--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में श्री राज सिंह, अनुभाग अधिकारी को उनकी अधिवार्षिता की आयु प्राप्त होने पर, दिनांक 31 मई, 2008 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

राम चरण मीणा  
सहायक वित्तीय सलाहकार

#### रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 330, दिनांक 20 जून 2008--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं--

श्री डी वैंकटेश्वर्लू सी सी ई आर एंड डी को डी आर डी ओ मुख्यालय में दिनांक 09 अप्रैल 2008 (पूर्वाह्न) से मुख्य कार्यकारी (सि नि एवं सं) (युप 'ए') के रूप में वेतनमान रु. 18,400--22,400 पर :--

दी अद्वरुज्ज्ञाक  
संयुक्त निदेशक (कार्यिक)

भारतीय बायु सेना

बायु शाखा

शुद्धि-पत्र

सं. 334, दिनांक 20 जून 2008

सी डी ए (बायु सेना) सं. डीसीए/ओ II/838 /बलुम-XXIX/ प्रमोशन-दिनांक 15 मार्च 2007 प्रमाणित किया गया युप कैप्टन जो बी सिंह (15758) संभा का डी जी एन में युप कैप्टन के मूल ऐक में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-

के लिए :- युप कैप्टन जो बी सिंह (15758) संभा-01 अक्टूबर 2006

पढ़ा जाए :- युप कैप्टन जो बी सिंह (15758), संभा, 19 सितम्बर 2006

के बी शंकर  
निदेशक कार्यिक (अधिकारी)-2बी

कैप्टन रितू मोहन (टीएस 122)0एस), 31 मार्च 2008 (एएस)

डी तनेजा  
मेजर जनरल  
एडीजीडीएस

सं. 335, दिनांक 23 जून 2008--रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री शिवजी माझी की 14 मार्च, 2008 को पृल्य हो गई।

के मुरताँ  
अवर सचिव

सं. 332, दिनांक 20 जून 2008--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में अवर सचिव श्री बलबीर सिंह को उनकी अधिवार्षिता की आयु होने पर, 31 मई, 2008 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

के मुरतों  
अवर सचिव

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 28th June 2008

No. 310, dated 13th June 2008.—The President is pleased to appoint Shri Morgan R Singh borne on the CSS cadre of Ministry of Defence as Section Officer on ad hoc basis in the same Ministry in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 01-05-2008(FN) for a period up to 30-06-2008 or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment will be subject to the following conditions :—

(i) The ad hoc appointments shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers grade of CSS.

(ii) He will be reverted to the Assistants' Grade on availability of regular Section Officer through normal channels of recruitment as prescribed in the CSS Rules.

K MURALI  
Under Secy

## ARMY BRANCH

No. 311, dated 13th June 2008.—The President is pleased to make the following appointments for a period of 05 years under 15/79 as amended and GOI MOD letter Nos. 10(3)(1)/05/D(Med) dated 20 Oct 2005 & 29 Oct 2007.

## REGULAR ARMY

## ARMY DENTAL CORPS

## SHORT SERVICE COMMISSION

To be Capt (On Probation)

Pushpinder Singh Ahuja (DS-12253F), 24 Dec 2007

Gautam Sarin (DS-12254K), 26 Dec 2007

Dushyant Chopra (DS-12255M), 27 Dec 2007

Sukhbir Pal Singh Dhaliwal (DS-12256P), 27 Dec 2007

Jaipreet Singh Joneja (DS-12257X), 28 Dec 2007

Amit Bhandari (DS-12258A), 29 Dec 2007

Bharat Bhan (DS-12259H), 30 Dec 2007

Harsh Vardhan Singh (DS-12260X), 31 Dec 2007

Nabeel Khan (DS-12261A), 31 Dec 2007

Munish Verma (DS-12262H), 31 Dec 2007

Sandeep Mehta (DS-12263L), 31 Dec 2007

(Ms) Shaminder Kaur Rai (DS-12264N), 01 Jan 2008

Mithun Jartarkar (DS-12265W), 01 Jan 2008

Ankur Matta (DS-12266Y), 03 Jan 2008

Ashok S U (DS-12268K), 04 Jan 2008

(Ms) Parminder Kaur (DS-12269M), 04 Jan 2008

Ashish Kumar Jha (DS-12270P), 04 Jan 2008

Bharat Ahuja (DS-12271K), 04 Jan 2008

Rahul (DS-12272M), 07 Jan 2008

Mukesh Kumar (DS-12273P), 07 Jan 2008

Sandeep Jhajhria (DS-12274X), 08 Jan 2008

Batchu Santosh (DS-12275A), 08 Jan 2008

Vikram Agnihotri (DS-12276H), 08 Jan 2008

Ankit Gupta (DS-12277L), 10 Jan 2008

Deshmukh Tushar Sharad (DS-12278N), 11 Jan 2008

Virender Singh (DS-12279W), 11 Jan 2008

(Ms) Deepa Yadav (DS-12280L), 11 Jan 2008

(Ms) Salmi Thomas (DS-12281N), 14 Jan 2008

(Ms) Preeti Narwal (DS-12282W), 14 Jan 2008

Shiv Shankar Agarwal (DS-12283Y), 14 Jan 2008

Ashish Patel (DS-12284F), 14 Jan 2008

(Ms) Esha Sharma (DS-12285K), 15 Jan 2008

A Pramod (DS-12286M), 16 Jan 2008

(Ms) Deepti Dalal (DS-12287P), 16 Jan 2008

Sandipan Bhattacharyya (DS-12288X), 17 Jan 2008

Anamdeep Singh (DS-12289A), 17 Jan 2008

(Ms) Ashoo Katoch (DS-12290P), 17 Jan 2008

Prateek Verma (DS-12291X), 17 Jan 2008

Hanumant Nishal (DS-12292A), 18 Jan 2008

Prashant Kumar (DS-12293H), 18 Jan 2008

(Ms) Mitika Singh Phull (DS-12294L), 20 Jan 2008

Aman Vij (DS-12295N), 21 Jan 2008

(Ms) Latika Jatrana (DS-12296W), 21 Jan 2008

Shakeel Ahamed (DS-12297Y), 21 Jan 2008

D K TANEJA  
Maj Gen  
Addl DGDS

## ARMY BRANCH

## DIRECTORATE GENERAL OF NATIONAL CADET CORPS

No. 312, dated 13th June 2008.—The President is pleased to extend the appointment of Shri Anil Kapoor,

(DOB : 23 Apr 1956) By Director under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules, 2001 for the periods mentioned below or till regular incumbents become available whichever is earlier :—

## Period

09 Aug 2006 to 29 Apr 2008

30 Apr 2008 to 29 Oct 2008

2. The appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

3. There will be no claim for regular promotion/appointment on the basis of promotion granted under Rule 7(8) of AFHQ CSR 2001 and the period of such appointment shall not count towards his seniority in the grade of Dy Director.

SHANKAR SINGH  
By Chief Admin Officer

## INTEGRATED HEADQUARTERS

## MIN OF DEFENCE (NAVY)

(Dte of Admin/Civ Section)

No. 313, dated 16th June 2008.—The President is pleased to appoint the following officers of AFHQ Civil Service as Dy Director (Group 'A' Gazetted) in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules 2001 for a period from 09-08-2006 to 29-04-2008 or till regular incumbent becomes available or till such time the officer retires, whichever is earlier :—

Shri A K Ahuja  
Shri A K Singh  
Shri D C Tyagi  
Shri D V Singh  
Shri D K Meena  
Shri Hari Kishan  
Shri Jagdish Singh  
Shri J A Parambil  
Shri Man Singh  
Smt Neena Mishra  
Shri P P Panja  
Shri R K Sahrawat  
Shri Raj Kumar  
Smt Sunnana Bharti

The President is pleased to extend the appointment of the following Assistants of AFHQ Civil Service as Section Officers (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules 2001 for a period from 24 Feb 2008 to 23 Aug 2008 or till regular incumbents become available or till such time the officers retire, whichever is earlier :—

Shri K C Bhardwaj	Shri Neeraj Ranjan
Shri N C Sahoo	Shri Debasis Pradhan
Shri S Banerjee	Shri Uday Kapat
Shri M K Jha	Shri Ravindra Sah
Shri Ajit Singh Indora	Shri K K Mishra
Shri Man Singh	Km. Ujjal Kaur
Shri Bhajan Lal	Shri S P Malhotra
Shri D V Arya	Shri V K Saxena
Shri V K Das	Shri A K Dheer
Shri Sukhendu Dan	Shri Azad Singh
Shri P K Das	Shri J P Meena
Shri Mohan Lal	Shri K K Tak
Shri S K Kardam	Shri S C Sethi
Shri Amarjit Singh	Shri S S Rawat
Shri Ved Prakash	Shri U K Ahuja
Shri N S Madan	Shri J S Virk
Shri Kailash Chand	Smt Mridula Mathur
Shri B P Singh	Shri R P Upreti
Shri R K Sahni	Shri Gurbachan Singh
Shri D K Prasad	Shri P N Valecha
Shri T Tonsing	Smt Sudesh Atlawadi
Shri K L Mamchand	Shri V V Mishra
Shri Chand Singh	Smt M Pahuja
Shri Het Prakash	Shri Shambhu Roy
Shri I S Bramniya	Smt Meena Chand
Shri Roop Chand	Smt Veena Shabbi
Shri Subhash Biswas	Shri Rampal Meena

2. This appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

SHANKAR SINGH  
By Chief Admin Officer (A)

**DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT  
ORGANIZATION**

No. 314, dated 16th June 2008.—The President is pleased to make the following appointments :—

The undermentioned individual(s) to be temporary Scientist(s) 'C' (Group 'A') in the Defence Research and Development Service on probation for a period of one year with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of Rs. 10,000-325-15,200/- :—

Name, Estt./Lab and Date of Joining

Shri S Anandhan, DARL, Pithoragarh, 26 Aug 2005.

T ABDURASSAK  
Jt Dir (Pers-8)

**DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT  
ORGANISATION**

No. 315, dated 16th June 2008.—The President is pleased to make the following appointments :—

The undermentioned individual(s) to be temporary Scientist(s) 'B' (Group 'A') in the Defence Research and Development Service on probation for a period of two years with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- :—

Name, Estt./Lab and Date of Joining

Shri Mahendra Pratap Singh, IRDE, Dehradun, 27 Apr 2006

Shri Souvik Chakraborty, DLRL, Hyderabad, 27 Apr 2006

Ms Shalini Rohela, VRDE, Ahmednagar, 27 Apr 2006

Shri Nani Medicherla, MTRDC, Bangalore, 27 Apr 2006

Ms Chinthoji Srilatha, ASL, Hyderabad, 27 Apr 2006

Ms Kavita, DESIDOC, Delhi, 08 Aug 2006

Shri Manish Tandon, IRDE, Dehradun, 27 Apr 2006

Shri Sandeep Mishra, IRDE, Dehradun, 27 Apr 2006

Ms Nilima Singh, ANURAG, Hyderabad, 27 Apr 2006

Shri Sanjeeva Reddy Yennam, ASL, Hyderabad, 27 Apr 2006

Mrs B R Sushma, LRDE, Bangalore, 02 Mar 2006

Shri Neeraj Pandey, IRDE, Dehradun, 27 Apr 2006

Shri D Praveen Kumar, INS Shivaji, Pune, 16 Oct 2006

Shri Amit Kumar, DEAL, Dehradun, 02 Nov 2006

Shri Prashant Avinash Kulkarni, IRDE, Dehradun, 27 Apr 2006

Shri Subhash Kumar Gautam, IRDE, Dehradun, 27 Apr 2006.

V P PANDE  
Associate Dir (Pers)

**NATIONAL CADET CORPS**

No. 316, dated 16th June 2008.—The undermentioned Vice Chancellors are granted the honorary rank of Colonel in the National Cadet Corps and are appointed as Colonel Commandants of their respective Universities as shown against their names for the period of their appointments as Vice Chancellors of the said Universities :—

Name of the Vice Chancellor, Name of the Directorate, Name of the University and Date of appointment as Vice Chancellor

Dr/Prof Srinivas K Saidapur, Vice Chancellor, Kar & Goa, Karnataka University, Pavate Nagar Dharwad, Karnataka State, 25 Oct 2006

Dr Qamar Ahsan, Vice Chancellor, Bihar & Jharkhand, B N Mandal University, Madhepura, Bihar, 20 Nov 2006

Dr Prema Jha, Vice Chancellor, Bihar & Jharkhand, Tilka Manjhi University, Bhagalpur, 20 Nov 2006

Prof (Dr) P K Abdul Azis, Vice Chancellor, UP, Aligarh Muslim University, Aligarh, 11 Jun 2007

Dr Venkatrao Manoharao Mayande, Vice Chancellor, Maharashtra, Dr Panjabrao Deshmukh, Krishi Vidyapeeth, Krishi Nagar, Akola, 04 Jul 2007

Prof Hassan Annegowda Ranganath, Vice Chancellor, Kar & Goa, Bangalore University, Bangalore, 29 May 2007

Dr Obalaiah Ananthramaiah, Vice Chancellor, Kar & Goa, Tumkur University, M G Road, Tumkur, Karnataka, 24 Mar 2005

Dr Bharatkumar G Patel, Vice Chancellor, Gujarat, Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar, Gujarat, 17 May 2007

Dr M Ponnavaiiko, Vice Chancellor, TN P&AN, Bharathidasan University, Trichirappalli, 11 Jul 2007

Dr P Ramasamy, Vice Chancellor, TN P&AN, Alagappa University, Tamil Nadu, 25 Jul 2007

Dr P Thangaraju, Vice Chancellor, TN P&AN, Tamil Nadu Veterinary & Animal Science University, Chennai, 12 Oct 2007

Prof Ram Rajesh Mishra, Vice Chancellor, MP&C, Vikram University, Ujjain, Ujjain (MP), 24 Nov 2004

U K DHAR  
Brig  
Dy Dir Gen (MS)

No. 317, dated 17th June 2008.—The President is pleased to make the following appointments :—

**REGULAR ARMY**  
**PERMANENT COMMISSION**

The undermentioned Short Service Commissioned officers are granted Permanent Commission the rank of Lieutenant with effect from the date as noted against each name under AI 219/50 as amended and relinquish their Short Service Commission with effect from 10 Apr 2007 with seniority for pay and promotion indicated against each officer :—

**Rank, Name & No., Date of Short Service Commission, Date of seniority after according ante date seniority, Date of seniority for pay and promotion and Date of Permanent Commission**

**Lt Mohd Adil Yaqub (VS-1074F now V-578H), 24 Mar 2003, 24 Mar 2002, 24 Mar 2002, 10 Apr 2007**

**Lt Subhash Chander Patial (VS-1084L now V-579L), 13 Sep 2004, 13 Sep 2003, 13 Sep 2003, 10 Apr 2007**

**Lt Gurdeep Singh (VS-1086W now V-580A), 13 Sep 2004, 13 Sep 2004, 13 Sep 2004, 10 Apr 2007**

**Lt Gajender Singh Rathore (VS-1088F now V-581H), 13 Sep 2004, 13 Sep 2003, 13 Sep 2003, 10 Apr 2007**

**Lt Alok Kumar Palei (VS-1090Y now V-582I), 13 Sep 2004, 13 Sep 2004, 13 Sep 2004, 10 Apr 2007**

**Lt Karabasappa Gurannavar (VS-1092K now V-583N), 13 Sep 2004, 13 Sep 2004, 13 Sep 2004, 10 Apr 2007**

**Lt Vikas Kumar Pradhan (VS-1098L now V-584W), 13 Sep 2004, 13 Sep 2003, 13 Sep 2003, 10 Apr 2007**

**Lt Mitesh Mittal (VS-1100X now V-585Y), 13 Sep 2004, 13 Sep 2003, 13 Sep 2003, 10 Apr 2007**

**P RAMA SASTRY**  
Under Secy

No. 318, dated 17th June 2008.—The President is pleased to allow the balance period of two years of central deputation tenure under Central Staffing Scheme to Dr. Ajai Kumar, IFS (MT:86) as Director in the Ministry of Defence w.e.f. 08-08-2008 and up to 07-08-2010.

**K MURALI**  
Under Secy

**MILITARY SECRETARY'S BRANCH**

No. 319, dated 17th June 2008.—The President is pleased to make the following promotions :—

**REGULAR ARMY**  
**PERMANENT COMMISSION**

To be substantive Brig

Rank, Name, IC No., Arm and Date of Subs Rank

Col J K Srivastava (V-00330), RVC, 01 Nov 2006

Col M L Sharma (V-00334), RVC, 01 Nov 2006

Col S S Thakaral (V-00341), RVC, 01 Dec 2006

Col M N Venugopalan (SL-02790), SL(RO), 04 May 2007

**N K PHUKAN**  
Dir/MS(X)

No. 320, dated 17th June 2008.—The President is pleased to make the following promotions :—

**REGULAR ARMY**  
**PERMANENT COMMISSION**

Maj to Lt Col

Name, IC No., Arms and Effective Date

Manpreet Singh Dhillon, (JC-46952), Arty, 22 Oct 2007

Satiendra Kumar Singh, (JC-51076), ASC, 22 Oct 2007

Surinder Singh, (JC-52623), Arty, 22 Oct 2007

Abhay Shankar Mukherjee, (JC-53043), Arty, 22 Oct 2007

Kahendra Kumar Singh, (JC-53211), Inf, 10 Dec 2007

Rajiv A, (JC-53439), AEC, 10 Dec 2007

Shailendra Pratap Singh, (JC-53449), Inf, 10 Dec 2007

Shailendra Singh Shahi, (JC-54764), Inf, 22 Oct 2007

Sanjay Washington, (JC-54790), ASC, 22 Oct 2007

Ajay Sangwan, (JC-54937), Inf, 22 Oct 2007

Akash Dhole, (JC-56909), EME, 10 Dec 2007

**NILESH CHOWDHARY**

Maj  
AMS 8B

**ARMY BRANCH**

No. 321, dated 18th June 2008.—The President is pleased to make the following promotions (PC) under AI 37/78, as amended :—

**REGULAR ARMY**

**ARMY DENTAL CORPS**

**PERMANENT COMMISSION**

Maj to bc Lt Col

R. Borikar (DR-11193A), 06 Jan 2008

Neeraj Kumar (DR-11543A), 04 Mar 2008

M M Goswami (DR-10462A), 07 Mar 2008

The President is pleased to make the following promotions under AI 15/79 as amended :—

**REGULAR ARMY**

**ARMY DENTAL CORPS**

**SHORT SERVICE COMMISSION**

Capt to be Quasi Substantive Major

(Ms) Anita Raj (DS-12110F), 07 Feb 2008

Vivek Malik (DS-12111K), 08 Feb 2008

(Ms) Sumeet Klair (DS-12112M), 18 Feb 2008

(Ms) Reema Singh (DS-12113P), 24 Feb 2008

D K TANEJA

Maj Gen

Addl DGDS

No. 322, dated 18th June 2008.—The President is pleased to make the following promotions :—

**REGULAR ARMY**

**PERMANENT COMMISSION**

Major to Lt Col

Name, IC No., Arms and with effect from

Bachani Kanaiyalal Lilarain (IC-41281), Engrs, 16 Dec 2004

Ajay Bafila (IC-52653), AC, 11 Dec 2006

Sailendra Patnaik (IC-52679), SIGs, 11 Dec 2006

Name, WS No., Arms and Effective Date

Shobhana Tripathi (WS-00075), AEC, 05 Sep 2007

Name, IC No., Arms and with effect from

P B Pandurangi (IC-39414), Engrs, 16 Dec 2004

Manu Kumar (IC-53214), AOC, 10 Dec 2007

Rajesh Misra (IC-53263), Inf, 10 Dec 2007

Balendu Singh Negi (IC-54772), JAG, 21 Apr 2006

Vinod Kumar (IC-46633), ASC, 08 Nov 2006

Vikram Singh (IC-46969), AC, 22 Apr 2006

Capt to be Maj

Name & Arms

Suresh Kumar, (4691), ASW (ER)

Senthil Kumar D, (4692), AEE/B/R (ER)

Rameshwar, (4693), AEE/B/R (ER)

Karando Shivmurti Mahadeo, (4694), ASW (ER)

Jitendra Singh, (4695), AEE/B/R (ER)

B Basava Linga Prasad, (4696), AEE/B/R (ER)

Balbir Singh, (4697), AEE E/M (ER)

Sham Singh, (4698), AEE/B/R (ER)

Inder Singh, (4699), ASW (ER)

Jayaprakash U B, (4701), ASW (ER)

Sanjay Patil, (4702), AEE E/M (ER)

Unni Krishnan Nair R, (4703), RO (ASC)

R S Bankoti, (4704), AEE B/R (ER)

Anil Kumar, (4705), AEE B/R (ER)

Rajesh Vasudeva, (4706), AEE B/R (ER)

M Rajaiah, (4709), AEE B/R (ER)

Anil Hahribhav Dalvi, (4710), AEE B/R (ER)

K N Sunil Kumar, (4712), AEE B/R (ER)

A K Singh, (4713), RO (EME)

Vinod Kumar, (4714), AEE B/R (ER)

Harihara Kumar N, (4715), RO (EME)

S Thomas Edward, (4716), EMAE (EME)

Bhusana Mohanty, (4717), RO (ASC)

T Sampath, (4718), RO (ASC)

Jaibir Singh, (4719), SIG

Baljit Singh, (4720), SIG

Sree Kumar S, (4721), RO (ASC)

Ranbir Singh, (4722), RO (ASC)

P K Patro, (4723), RO (AOC)

Rameshwar, (4724), RO (INF)

Sunil Kumar Bhalla, (4725), RO (ASC)

Narendra Kumar Dubey, (4727), RO (ARTY)

Rajeev D, (4728), RO (ER)

M Alagu, (4730), RO (EME)

Vijay Pal, (4731), TEO (AD ARTY)

M D Krishna Kumar, (4732), AEE E/M (ER)

Tejminder Singh, (4733), EMAE (EME)

G Uthirya Raj, (4734), RO (ER)

Sharwan Ram, (4735), RO (INF)

— 02 Apr 2008 —

JASWANT SINGH

Jt Dir

MS-SC

**ARMY BRANCH**

No. 323, dated 18th June 2008.—The President is pleased to make the following promotions :—

**TERRITORIAL ARMY****TERRITORIAL COMMISSION**

To be Lt Col

Maj M N R Pawar (TA-42080), Inf, 04 Feb 2007

Maj Rakesh Bhatnagar (TA-42082), Inf, 04 Feb 2007

Maj Rashid Ahmed (TA-42123), Inf, 28 Feb 2007

Maj B B S Chandra (TA-42125), Inf, 02 May 2007

Maj P S Rathore (TA-42331), Inf, 27 Sep 2007

Maj Rajesh Tanwar (TA-42344), Inf, 08 Jul 2007

To be Major

Capt Arpan Anand (TA 42591), Inf, 16 Dec 2004

JAI RAJ  
Under Secy

**ARMY BRANCH**

No. 324, dated 18th June 2008.—The President is pleased to make the promotions of the undermentioned AMC officers with effect from the date mentioned against their names :—

**REGULAR ARMY****PERMANENT COMMISSION**

Maj to be Lt Col

Sanjai Srivastava (MR-07377M), AMC, 13 Mar 2006

Himanshu Dixit (MR-07206A), AMC, 05 Aug 2006

(Mrs) Karuna Datta (MR-06737L), AMC, 04 Jan 2007

R Mothukuri (MR-06757Y), AMC, 04 Jan 2007

Satyasom Sarkar (MR-07767P), AMC, 10 Oct 2007

Harvandan Kaur Bedi (MR-07934A), AMC, 05 Jan 2008

Pawan Sharma (MR-06886Y), AMC, 08 Jan 2008

Ranjeet Kumar (MR-06897L), AMC, 08 Jan 2008

Awancesh Pandey (MR-06901H), AMC, 18 Jan 2008

Anupam Ghosal (MR-08004L), AMC, 26 Feb 2008

Capt to be Major

Kiran Upadhyay (MR-07866X), AMC, 04 Jan 2008

Richa Joshi (MR-07869L), AMC, 04 Jan 2008

Nitu Singh (MR-07873N), AMC, 04 Jan 2008

Km Divya Singh (MR-07878M), AMC, 04 Jan 2008

Paresh Singhal (MR-07893F), AMC, 04 Jan 2008

Pramil Kumar (MR-07896P), AMC, 04 Jan 2008

Janmeet Singh Kular (MR-07918H), AMC, 22 Feb 2008

Vivek Tewari (MS-14746F) (MR-08477K), AMC, 04 Dec 2007

Tanu Tripathi (MS-14748M) (MR-08478M), AMC, 09 Dec 2007

Anurag Jain (MS-14769H) (MR-08469L), AMC, 17 Feb 2008

Reeti Sisodiya (MS-14770X) (MR-08494K), AMC, 17 Feb 2008

Surg Lt to be Surg Lt Cdr

Srirangam Vijay Bhaskar (MR-07559A) (75758A), AMC, 05 Feb 2006

Soumitra Mohanty (MR-07804X) (75809T), AMC, 02 Aug 2007

Brijesh Kumar Soni (MR-08464M) (75825B), AMC, 28 Nov 2007

Saurabh Tandon (MR-08523N) (75829N), AMC, 01 Jan 2008

**(ARMY MEDICAL CORPS)**

Surg Cdr/Capt(TS) to be Surg Capt (Selection)

VSSR Ryali (MR-04343N) (75271), 24 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 26 Dec 2005

R Kalra (MR-04564A) (75281), 24 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Mar 2006

Surg Capt(TS) (& equivalent) to be Surg Capt (Selection & equivalent)

Rajveer Dhir (MR-04209H) (75262), 21 Mar 2006 with notional seniority without effect on pay & pension from 29 Dec 2005

G RAVINDRANATH  
Brig  
Dy DGAFMS(P)

**ARMY BRANCH**

No. 325, dated 19th June 2008.—The President is pleased to make the following promotions :—

**REGULAR ARMY****INFANTRY**

The Mechanised Infantry Regiment

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Jatappa Tilaganji (JC-418298L), 26 Feb 2008\*

\*Granted seniority in the rank of substantive Subedar Major w.e.f 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sat Paul (JC-419848P), 01 Jan 2008	Hav Mabendra Singh (No. 2988575X now JC-420884M), 16 Feb 2008*
Nb Sub Mohd Farooq (JC-419889Y), 01 Jan 2008	*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 19 Jan 2008 without effect on pay and allowances)
Nb Sub Raj Kumar (JC-419915P), 01 Feb 2008	Hav Rajvinder Singh (No. 14911477F now JC-420885P), 30 Jan 2008*
Nb Sub Babar Mohan Nagnath (JC-420091K), 01 Feb 2008	*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 26 Jan 2008 without effect on pay and allowances)
Nb Sub Hukum Singh (JC-420166W), 01 Feb 2008	Hav Maha Ram (No. 2985496X now JC-420886X), 01 Feb 2008
Nb Sub Padmanabhan T (JC-419816M), 15 Feb 2008*	Hav Bhim Singh (No. 2985513M now JC-420887A), 02 Feb 2008*
*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 07 Feb 2008 without effect on pay and allowances)	*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)
Nb Sub B Jeyachandran (JC-419864M), 11 Feb 2008	Hav Rajendar Prasad Saini (No. 14915131P now JC-420888H), 01 Feb 2008
Nb Sub Karan Singh (JC-419652F), 01 Mar 2008	Hav Ram Deo (No. 14913139H now JC-420889L), 01 Feb 2008
Nb Sub Bijay Kumar Parida (JC-419980P), 01 Mar 2008	Hav Nand Lal (No. 14911930N now JC-420890A), 01 Feb 2008
Nb Sub Bharat Dev Singh (JC-420039F), 01 Mar 2008	Hav Sat Pal (No. 14908506A now JC-420891H), 01 Feb 2008
Nb Sub Prem Singh (JC-420080X), 01 Mar 2008	Hav Kuldeep Singh (No. 14912351N now JC-420892L), 01 Feb 2008
Nb Sub Ram Niwas (JC-420081A), 02 Mar 2008*	Hav K Murugan (No. 14914472N now JC-420893N), 08 Feb 2008*
*(Granted seniority in the rank of Substantive Subedar wef 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)	*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)
Nb Sub Mool Chand Gujar (JC-420098N), 01 Mar 2008	Hav Sukhdev Singh (No. 14911689M now JC-420894W), 12 Feb 2008*
Nb Sub Parveen Singh (JC-420109P), 01 Mar 2008	*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)
Nb Sub Het Ram (JC-420117N), 01 Mar 2008	Hav Suresh Kumar (No. 14914749F now JC-420895Y), 28 Feb 2008*
Nb Sub Ram Niwas Singh (JC-420118W), 01 Mar 2008	*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)
Nb Sub Keshar Singh (JC-420134N), 01 Mar 2008	Hav Ram Naresh (No. 14913570P now JC-420896F), 01 Feb 2008
Nb Sub Malkhan Singh (JC-420187M), 01 Mar 2008	Hav P Murugan (No. 14914474Y now JC-420897K), 27 Feb 2008*
Nb Sub Rajpal (JC-420220Y), 01 Mar 2008	*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 10 Feb 2008 without effect on pay and allowances)
To be Naib Subedar	
Hav Jagdish Singh (No. 14913219A now JC-420881Y), 09 Feb 2008*	
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Jan 2008 without effect on pay and allowances)	
Hav Sohan Singh (No. 14910491F now JC-420882F), 09 Feb 2008*	
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Jan 2008 without effect on pay and allowances)	
Hav Munendra Pal Singh Chauhan (No. 2988043X now JC-420883K), 21 Jan 2008*	
*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 06 Jan 2008 without effect on pay and allowances)	

Hav Kandekar Baben laxman (No. 14908486X now JC-420898M), 01 Mar 2008

Hav Fateh Singh (No. 2985516A now JC-420899P), 01 Mar 2008

Hav Inder Singh (No. 2985581A now JC-420900Y), 01 Mar 2008

Hav Ram Paul (No. 14911100X now JC-420901F), 01 Mar 2008

Hav Surjit Singh (No. 14911012F now JC-420902K), 08 Mar 2008\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Mar 2008 without effect on pay and allowances)

To be Naib Subedar (Clerk)

Hav (Clk) Utpal Sinha Roy (No. 14912268W now JC-420878Y), 18 Dec 2007\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar (Clerk) with effect from 01 Oct 2007 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk) Sudama Mishra (No. 14912339M now JC-420903M), 01 Jan 2008

Hav (Clk) Bhanwar Singh (No. 14916838Y now JC-420879F), 01 Jan 2008

Hav (Clk) Hans Raj (No. 14912348N now JC-420880W), 01 Jan 2008

Hav (Clk) Karam Bir Singh (No. 14912401N now JC-420904P), 01 Feb 2008

Hav (Clk) Daya Shankar Singh Yadav (No. 14912402W now JC-420905X), 01 Feb 2008

Hav (Clk) Suresh Kumar (No. 14912404F now JC-420906A), 01 Mar 2008

Hav (Clk) Balbir Singh (No. 14912409A now JC-420907H), 01 Mar 2008

To be Naib Subedar (Skt)

Hav (Skt) Ravinder Singh (No. 14904098H now JC-420877W), 01 Jan 2008

Hav (Skt) Deo Das Dwiwedi (No. 14907410L now JC-420908L), 01 Mar 2008

Hav (Skt) Satish Kumar (No. 14907724M now JC-420909N), 01 Mar 2008

J ROY CHOWDHARY  
Under Secy

#### ARMY BRANCH

#### REGIMENT OF ARTILLERY

No. 326, dated 19th June 2008.—The President is pleased to make the following promotions :—

To be Naib Subedar (Clerk GD & Skt)

Hav (Clk) Rani Bahadur Singh (No. 14495617H now JC-270875X), 01 Nov 2007

Hav (Clk) Charan Singh Tomar (No. 14495628P now JC-270970K), 01 Nov 2007

Hav (Clk) Kamlesh Kumar (No. 14383348A now JC-270971M), 01 Nov 2007

Hav (Clk) Omprakash Sharma (No. 14383400X now JC-270876A), 01 Nov 2007

Hav (Clk) Chandra Pal Singh (No. 14383401A now JC-271077W), 01 Nov 2007

Hav (Clk) Shiv Kumar (No. 14383419W now JC-270972P), 01 Nov 2007

Hav (Clk) Bansh Raj Gwal (No. 14485803L now JC-270877H), 01 Nov 2007

Hav (Clk) Pradeep Kumar Mishra (No. 14486835A now JC-270973X), 01 Nov 2007

Hav (Clk) Ram Kumar Singh (No. 14383748M now JC-270974A), 01 Nov 2007

Hav (Clk) Subhash Chander (No. 14383789W now JC-270878L), 01 Nov 2007

Hav (Clk) Prem Singh (No. 14497509X now JC-270879N), 01 Nov 2007

Hav (Skt) Ram Pati Prasad (No. 14385786F now JC-270975H), 01 Nov 2007

Hav (Clk) Sathya Nandan K B (No. 14497489P now JC-271078Y), 01 Dec 2007

Hav (Clk) Tarkeshwar Ojha (No. 14497822H now JC-271079F), 01 Dec 2007

Hav (Clk) Bratindra Kumar Biswas (No. 14497825W now JC-271080W), 01 Dec 2007

Hav (Clk) Ram Bhagat (No. 14497918L now JC-270976L), 01 Dec 2007

Hav (Clk) Sanjay (No. 14497934H now JC-270977N), 01 Dec 2007

Hav (Clk) Vijender Sharma (No. 14497944M now JC-270978W), 01 Dec 2007

Hav (Clk) Ishwar Singh (No. 14498142P now JC-270979Y), 01 Dec 2007

Hav (Clk) Ranjeet Singh (No. 14498146L now JC-271081Y), 01 Dec 2007

\*(Gld seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay & allces)

#### REGULAR ARMY

#### PIONEER CORPS

To be Substantive Sub (GD/Clk)

Rank, Name, Personal No. and Date of Promotion and Substantive Rank of Sub

Nb Sub (GD) Md Babu Mia Chowdhury (JC-829286K), 04 Jul 2007@

- Nb Sub (GD) Shiv Lal (JC-829292X), 01 Oct 2007
- Nb Sub (GD) Prem Pal Singh (JC-829293A), 01 Oct 2007
- Nb Sub (GD) Vijay Kumar Pandey (JC-829294H), 01 Oct 2007
- Nb Sub (GD) Indu Kumar Singh (JC-829296N), 03 Oct 2007#
- Nb Sub (GD) Ram Pal Singh (JC-829297W), 14 Nov 2007#
- Nb Sub (GD) Ram Jewan Singh (JC-829298Y), 03 Oct 2007#
- Nb Sub (GD) Subramani S M (JC-829299F), 08 Oct 2007#
- Nb Sub (GD) Raj Pal Gurjar (JC-829300L), 01 Nov 2007
- Nb Sub (GD) Narottam Singh (JC-829301N), 01 Nov 2007
- Nb Sub (GD) Radhey Raman (JC-829302W), 01 Nov 2007
- Nb Sub (GD) Vinod Kumar Choudhary (JC-829305K), 06 Nov 2007\*
- Nb Sub (GD) Chandra Thakuri (JC-829306M), 01 Nov 2007
- Nb Sub (GD) Ranvir Singh (JC-829307P), 01 Dec 2007
- Nb Sub (GD) Badal Kumar Saha (JC-829308X), 18 Dec 2007\$
- Nb Sub Clk (GD) Ved Prakash Singh (JC-829094M), 01 Nov 2007
- Nb Sub Clk (GD) Daya Nand Singh Yadava (JC-829122N), 01 Dec 2007
- Nb Sub Clk (GD) Radha Krishnan M K (JC-829198N), 01 Jan 2008
- Nb Sub Clk (GD) Anirudhan M R (JC-829199W), 01 Jan 2008
- @ (Granted seniority in the rank of Sub (GD) wef 01 Jun 2007 without effect on pay & allowances).
- # (Granted seniority in the rank of Sub (GD) wef 01 Oct 2007 without effect on pay & allowances).
- \* (Granted seniority in the rank of Sub (GD) wef 01 Nov 2007 without effect on pay & allowances).
- \$ (Granted seniority in the rank of Sub (GD) wef 01 Dec 2007 without effect on pay & allowances).

P RAMA SASTRY  
Under Secy

**CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL  
ENGR BRANCH**

No. 327, dated 19th June 2008.—The President is pleased to make the following Appointment/Promotion :—

To be Sub Maj Artn(EC)

Sub Suleman Khan (JC-752721L), 11 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Sub Ram Sakal Prasad (JC-753632Y), 01 Feb 2008/01 Feb 2008\*

To be Sub Maj Artn(NE)

Sub Mukadeo Ram Gupta (JC-752339P), 01 Feb 2008/01 Feb 2008\*

To be Sub Maj Clk(GD)

Sub Mohd Irfan Siddiquee (JC-749057L), 04 Dec 2007/01 Nov 2007\*

Sub P Thani Gaimani (JC-749060L), 01 Dec 2007/01 Dec 2007\*

Sub Gulshan Kumar (JC-749279A), 09 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Sub Subrata Hazra (JC-748525N), 01 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Sub Rakesh Kumar Pathania (JC-749196P), 01 Jan 2008/01 Jan 2008\*

To be Sub Maj DW

Sub S Arockianathan (JC-752929N), 01 Jan 2008/01 Jan 2008\*

To be Sub Maj Rec Mech

Sub Sasi Dharan P K (JC-749166X), 01 Dec 2007/01 Dec 2007\*

To be Sub Maj RT

Sub Kamala Prasad Pandey (JC-123862A), 28 Nov 2007/01 Nov 2007\*

To be Sub Maj Skt

Sub Suryabansh Singh (JC-750691A), 17 Nov 2007/01 Nov 2007\*

Sub Birender Singh (JC-749245M), 01 Feb 2008/01 Feb 2008\*

To be Sub Maj Tech

Sub Phool Singh (JC-750999N), 11 Feb 2008/01 Feb 2008\*

Sub Kuldeep Kumar Sharma (JC-751391L), 01 Feb 2008/01 Feb 2008\*

Sub P V Jaya Seelan (JC-751274A), 01 Feb 2008/01 Feb 2008\*

Sub Pritam Singh Saini (JC-751382K), 01 Feb 2008/01 Feb 2008*	To be Sub Artn Avn
Sub Harish Singh (JC-750893F), 24 Dec 2007/01 Dec 2007*	Nb Sub S Janardan Panchu (JC-760483Y), 01 Jan 2008/01 Oct 2007*
Sub Gagan Chand (JC-750842N), 08 Dec 2007/01 Dec 2007*	Nb Sub Budhi Ballabh (JC-760481N), 17 Dec 2007/01 Dec 2007*
Sub Rambachan Singh Yadav (JC-751301Y), 01 Feb 2008/01 Feb 2008*	Nb Sub Mahipal Singh (JC-760482W), 15 Dec 2007/01 Dec 2007*
Sub G Mangalpuri Bhukhapuri (JC-750832K), 14 Dec 2007/01 Dec 2007*	To be Sub Artn(EC)
Sub Madan Mohan (JC-750769A), 01 Feb 2008/01 Feb 2008*	Nb Sub Bijay Kumar Singh (JC-757646W), 09 Jan 2008/01 Jan 2008*
Sub Vijay Shanker (JC-751306X), 01 Feb 2008/01 Feb 2008*	Nb Sub Jugal Kishore Pandey (JC-759063M), 26 Dec 2007/01 Dec 2007*
Sub Subhash Singh (JC-751023W), 01 Feb 2008/01 Feb 2008*	Nb Sub Ramesh Chand (JC-759064P), 13 Dec 2007/01 Dec 2007*
Sub Surender Singh Rawat (JC-750404L), 01 Feb 2008/01 Apr 2007*	To be Sub Artn(NE)
Sub Lal Bahadur Rai (JC-748864N), 01 Jan 2008/01 Jan 2008*	Nb Sub Bahadur Ram Masahary (JC-758089P), 03 Jan 2008/01 Oct 2007*
Sub Diwan Singh (JC-750568F), 31 Dec 2007/01 Sep 2007*	Nb Sub Qomir Singh (JC-758396M), 07 Jan 2008/01 Jan 2008*
Sub Rajeshwar Singh (JC-750596N), 01 Feb 2008/01 Feb 2008*	To be Sub Clk(GD)
Sub Bhupinder Kumar (JC-751298K), 01 Feb 2008/01 Feb 2008*	Nb Sub Ravindra Singh (JC-754851M), 15 Sep 2007/01 Jul 2007*
Sub Arun Kumar (JC-749859P), 07 Jan 2008/01 Jan 2008*	Nb Sub Ramesh Kumar Gur (JC-754982X), 14 Dec 2007/01 Dec 2007*
Sub Surjit Singh (JC-750296M), 05 Jan 2008/01 Jan 2008*	Nb Sub Dhanraj Singh (JC-754985L), 18 Dec 2007/01 Dec 2007*
Sub Gunasekaran K (JC-750752M), 12 Oct 2007/01 Oct 2007*	Nb Sub Suresh Chander (JC-754987W), 01 Jan 2008/01 Jan 2008*
To be Sub Maj Tech Avn	Nb Sub Randhir Singh (JC-755029P), 01 Jan 2008/01 Jan 2008*
Sub Jagroop Singh (JC-753761Y), 08 Dec 2007/01 Nov 2007*	Nb Sub Shri Bhagwan (JC-755030K), 01 Jan 2008/01 Jan 2008*
Sub Raghubir Singh (JC-753733M), 06 Feb 2008/01 Feb 2008*	Nb Sub Suresh Chand (JC-755031M), 04 Jan 2008/01 Jan 2008*
Sub Tulchha Ram (JC-753731F), 07 Dec 2007/01 Nov 2007*	Nb Sub Karmvir (JC-755033X), 03 Jan 2008/01 Jan 2008*
Sub Teeka Ram (JC-753736A), 07 Jan 2008/01 Jan 2008*	Nb Sub Mehendra Singh (JC-755034A), 01 Jan 2008/01 Jan 2008*
*(Gtd ante dated seniority)	Nb Sub Satya Dev Prasad Pal (JC-755102H), 07 Jan 2008/01 Jan 2008*
To be Sub Armr	Nb Sub Uttam Chand Rana (JC-755103L), 01 Jan 2008/01 Jan 2008*
Nb Sub Rajinder Singh (JC-758143X), 06 Dec 2007/01 Nov 2007*	Nb Sub Virender Singh Yadav (JC-755104N), 01 Jan 2008/01 Jan 2008*
	Nb Sub Satya Narayan (JC-755106Y), 01 Jan 2008/01 Jan 2008*

To be Sub DW

Nb Sub Jaibir Singh (JC-759380N), 03 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Nb Sub Om Prakash Singh (JC-759382Y), 11 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Nb Sub Brijendra Kumar Pal (JC-759384K), 11 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Nb Sub Phool Singh (JC-759385M), 08 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Nb Sub Sumer Singh Yadav (JC-759387X), 07 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Nb Sub Manoranjan Barman (JC-759388A), 05 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Nb Sub Ramji Prasad (JC-759389H), 02 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Nb Sub Brahmdeo Poddar (JC-759439H), 08 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Nb Sub Rajendra Singh (JC-759440X), 08 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Nb Sub Pooran Singh (JC-759441A), 07 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Nb Sub Santosh Kumar (JC-759443L), 07 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Nb Sub Baboo Lal (JC-759450F), 03 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Nb Sub Akshaya Kumar (JC-759456H), 04 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Nb Sub Shri Krishna Baghel (JC-759457L), 16 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Nb Sub Ram Charan (JC-759562F), 05 Jan 2008/01 Jan 2008\*

To be Sub RT

Nb Sub Chandra Bhushan Pandey (JC-752831A), 14 Jan 2008/01 Jan 2008\*

To be Sub SKT

Nb Sub Dharmendra Singh (JC-755100X), 08 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Nb Sub Suresh H R (JC-755101A), 05 Jan 2008/01 Jan 2008\*

To be Sub Tech

Nb Sub Jeewann Ram Sewda (JC-757498W), 08 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Nb Sub Meghraj Tanwar (JC-757109L), 03 Apr 2007/01 Apr 2007\*

Nb Sub Dharma Raj Singh (JC-757228F), 20 Jul 2007/01 Jun 2007\*

Nb Sub Gopesh Kumar Bisht (JC-757392K), 09 Aug 2007/01 Jul 2007\*

Nb Sub Arjun Singh (JC-757748M), 16 Nov 2007/01 Oct 2007\*

Nb Sub Ranjit Singh Shishodia (JC-757593H), 17 Dec 2007/01 Dec 2007\*

Nb Sub P Seenivasagan (JC-757594L), 14 Dec 2007/01 Dec 2007\*

Nb Sub M N Siva Kumar (JC-757822H), 13 Dec 2007/01 Dec 2007\*

Nb Sub Kanwar Buddhimani Singh (JC-757876K), 31 Dec 2007/01 Dec 2007\*

Nb Sub Ravinder Singh (JC-757877M), 15 Dec 2007/01 Dec 2007\*

Nb Sub Surender Singh (JC-757486F), 20 Dec 2007/01 Dec 2007\*

Nb Sub Hari Prasad Yadav (JC-757634F), 19 Dec 2007/01 Dec 2007\*

Nb Sub Mahander Singh (JC-757635K), 15 Dec 2007/01 Dec 2007\*

Nb Sub Anand Singh (JC-757638X), 15 Dec 2007/01 Dec 2007\*

Nb Sub Indra Pal (JC-757488M), 01 Jan 2008/01 Dec 2007\*

Nb Sub Sunder Singh (JC-757641X), 20 Dec 2007/01 Dec 2007\*

Nb Sub Surendra Singh Sharma (JC-757490K), 14 Dec 2007/01 Dec 2007\*

Nb Sub Jaswant Singh (JC-757643H), 04 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Nb Sub Avanish Kumar (JC-757491M), 08 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Nb Sub Santosh Kumar (JC-757644L), 08 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Nb Sub Udal Singh Yadav (JC-757648F), 07 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Nb Sub Divakaran K (JC-757500H), 05 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Nb Sub Nripen Chandra Malakar (JC-757650Y), 01 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Nb Sub Prabin Kumar Bag (JC-757651F), 05 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Nb Sub Gopi Nadhan C (JC-757653M), 07 Jan 2008/01 Jan 2008\*

To be Sub Tech AVN

Nb Sub John Anand Dungdung (JC-757399N), 21 Nov 2007/01 Aug 2007\*

Nb Sub Madan Kishore Singh (JC-757853H), 08 Dec 2007/01 Dec 2007\*

Nb Sub Mahesh Chandra Gupta (JC-757841N), 05 Jan 2008/01 Jan 2008\*

\*Gtd ante dated seniority

Hav to be Nb Sub Tech A-VEH

Dinesh Kumar Sharma (No. 14580629P now JC-762051H), 31 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Kumar Kamble (No. 14620671Y now JC-762019N), 25 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Raju K (No. 14608706X now JC-762054W), 02 Feb 2008/01 Jan 2008\*

Ranjit Singh (No. 14619871H now JC-762012K), 01 Feb 2008/01 Jan 2008\*

Hav to be Nb Sub Tech B-VEH

Alagouda (No. 14598610Y now JC-761989K), 28 Jan 2008/01 Dec 2007\*

Arun Pratap (No. 14599036X now JC-761992K), 31 Jan 2008/01 Dec 2007\*

Baidya Nath Roy (No. 14597275N now JC-761991F), 28 Jan 2008/01 Dec 2007\*

Binod Kumar Jha (No. 14594307A now JC-761983H), 31 Jan 2008/01 Dec 2007\*

Brahmananda Dehury (No. 14598300N now JC-761956Y), 30 Jan 2008/09 Dec 2007\*

Daya Krishan Bhatt (No. 14595628K now JC-761984L), 28 Jan 2008/01 Dec 2007\*

Dushasana Dalei (No. 14604105P now JC-762006W), 01 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Ganesh Kumar (No. 14612163N now JC-762045P), 30 Jan 2008/01 Jan 2008\*

J Sahaya Raj (No. 14586138P now JC-761970L), 01 Feb 2008/01 Dec 2007\*

Jay Ram Kanwar (No. 14610401W now JC-762041Y), 31 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Jitender Kumar (No. 14608134F now JC-761957F), 31 Jan 2008/30 Nov 2007\*

Kamal Kumar Gurung (No. 14598405X now JC-761988F), 29 Jan 2008/01 Dec 2007\*

Mukhtar Singh (No. 14584347N now JC-761969W), 29 Jan 2008/01 Dec 2007\*

Philip K A (No. 14602335K now JC-761999N), 01 Feb 2008/01 Jan 2008\*

Ram Swarath Prasad (No. 14581892M now JC-761966H), 02 Feb 2008/01 Dec 2007\*

Ramesh Kumar Singh (No. 14602832N now JC-762002A), 01 Feb 2008/01 Jan 2008\*

Ratan Singh (No. 14608809W now JC-762033A), 31 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Sham Din (No. 14603144F now JC-762003H), 02 Feb 2008/01 Jan 2008\*

Sunilkumar Thakur (No. 14582522Y now JC-761967L), 01 Dec 2007/01 Dec 2007\*

Tiwari Anil Kumar Rammath (No. 14607661W now JC-762026K), 30 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Vipin Kumar Sharma (No. 14583070N now JC-761968N), 29 Jan 2008/01 Dec 2007\*

Hav to be Nb Sub Tech CMPTR

Dhirendra Sasmal (No. 14618089N now JC-762057K), 01 Feb 2008/01 Oct 2007\*

Khagesh Kumar (No. 14615322L now JC-762065H), 29 Jan 2008/01 Dec 2007\*

Kumbhar Vitthal Bhimrao (No. 14614831X now JC-762056F), 25 Jan 2008/02 Sep 2007\*

Pratap Mahakhud (No. 14615922N now JC-762066L), 30 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Prem Shankar Yadav (No. 14617376L now JC-762069Y), 01 Feb 2008/01 Feb 2008\*

Rajesh Kumar (No. 14614719L now JC-762059P), 01 Feb 2008/01 Nov 2007\*

T Venkata Ramana (No. 14616178N now JC-762061M), 26 Jan 2008/01 Dec 2007\*

Hav to be Nb Sub Tech C-VEH

Khalil Ahmed (No. 14611228K now JC-761962M), 01 Feb 2008/01 Dec 2007\*

\*Gtd ante dated seniority

Hav to be Nb Sub Tech A-VEH

A Purushothaman (No. 14608720K now JC-762055Y), 01 Feb 2008/01 Jan 2008\*

Ajay Kumar Pandey (No. 14620554N now JC-762017H), 02 Feb 2008/01 Jan 2008\*

Dilbag Singh (No. 14572725P now JC-762048H), 18 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Harbhjan Singh Gaur (No. 14579305X now JC-762049L), 02 Feb 2008/01 Jan 2008\*

Naresh Chandra Biswas (No. 14620672F now JC-762020H), 04 Feb 2008/01 Jan 2008\*

Narottam Kumar Jha (No. 14607225Y now JC-762053N), 02 Feb 2008/01 Jan 2008\*

Prakash Chand Saini (No. 14619044A now JC-762011P), 01 Feb 2008/01 Jan 2008\*

Raheesh Prasad Yadav (No. 14619979A now JC-762014P), 31 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Sanjay Kumar (No. 14620409W now JC-762015X), 09 Feb 2008/01 Jan 2008\*

Satyaveer (No. 14619976M now JC-762013M), 01 Feb 2008/01 Jan 2008\*

Hav to be Nb Sub Tech B-VEH

Amrendra Kumar Singh (No. 14601409F now JC-761998L), 30 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Anirudha Chanurvedi (No. 14606848P now JC-762030M),  
31 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Awdhesh Kumar Sharma (No. 14591821Y now JC-761980P), 21 Jan 2008/01 Dec 2007\*

Bhim Ram Kumar (No. 14593298X now JC-761982A),  
05 Feb 2008/01 Dec 2007\*

Madhu Sudhanan Pillai K (No. 14602343H now JC-762000P), 04 Feb 2008/01 Jan 2008\*

Maharaj Singh (No. 14587163A now JC-761972W),  
05 Feb 2008/01 Dec 2007\*

Mani Shankar Rai (No. 14611286N now JC-761978X),  
07 Feb 2008/01 Dec 2007\*

Mukesh Chandra Sharma (No. 14611477H now JC-761979A), 02 Feb 2008/01 Dec 2007\*

Nerdip Singh (No. 14598211P now JC-761986W),  
04 Feb 2008/01 Dec 2007\*

Prabhata Kumar Jena (No. 14597314F now JC-761993M), 24 Jan 2008/01 Dec 2007\*

Premananda Nanda (No. 14606130M now JC-762007Y),  
01 Feb 2008/01 Jan 2008\*

Rajni Kant Singh (No. 14598509Y now JC-761987Y),  
30 Jan 2008/01 Dec 2007\*

Shankar Dass (No. 14612266M now JC-761958K),  
29 Jan 2008/04 Nov 2007\*

Shyambir (No. 14609191P now JC-762034H), 17 Jan  
2008/01 Jan 2008\*

Surendra Bastawad (No. 14608923N now JC-761974F),  
04 Feb 2008/01 Dec 2007\*

Zulfeguar Ahmad (No. 14608880K now JC-762032X),  
01 Feb 2008/01 Jan 2008\*

Hav to be Nb Sub Tech CMPTR

B Krishna Rao (No. 14616831W now JC-762063X),  
01 Dec 2007/01 Dec 2007\*

Dinesh Kumar (No. 14603931H now JC-762058M),  
03 Feb 2008/01 Oct 2007\*

Shekhara Nand Joshi (No. 14616629H now JC-762067N),  
22 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Hav to be Nb Sub Tech C-VEH

Babu Lal (No. 14612897P now JC-761963P), 02 Feb  
2008/01 Dec 2007\*

Devi Prasad Das (No. 14612904A now JC-761964X),  
30 Jan 2008/01 Dec 2007\*

Shri Dushyant Singh (No. 14609313N now JC-761961K),  
01 Feb 2008/01 Dec 2007\*

Sumer Singh (No. 14583026K now JC-761960F),  
04 Feb 2008/01 Dec 2007\*

\*Gtd ante dated seniority

Hav to be Nb Sub ARMR

Dev Raj Ram (No. 14552772L now JC-761796K),  
01 Nov 2007/01 Nov 2007\*

Hav to be Nb Sub AVF (AF)

Gunna Bhaskara Rao (No. 14604708L now JC-761807L),  
27 Nov 2007/01 Oct 2007\*

Jagdish Chandra (No. 14607444A now JC-761808N),  
19 Dec 2007/01 Nov 2007\*

Hav to be Nb Sub AVF (ELE)

Prem Kumar Mishra (No. 14553068F now JC-761814F),  
08 Dec 2007/01 Oct 2007\*

Hav to be Nb Sub AVF (I & P)

Raghav Nandan Singh (No. 14593682Y now JC-761851P),  
01 Jan 2008/01 Aug 2007\*

Hav to be Nb Sub CLK (GD)

Dal Chand (No. 14568382M now JC-761827Y), 17 Dec  
2007/01 Dec 2007\*

Daya Shankar Singh Yadav (No. 14568364K now JC-  
761826W), 24 Dec 2007/01 Dec 2007\*

Mankeshwar Prasad Singh (No. 14567675L now JC-  
761828F), 19 Dec 2007/01 Dec 2007\*

Vinod Kumar Sharma (No. 14568246W now JC-  
761825N), 19 Dec 2007/01 Dec 2007\*

Wazir Singh (No. 14568241X now JC-761824L),  
21 Dec 2007/01 Nov 2007\*

Hav to be Nb Sub EE Mech

Azad Singh (No. 14556283X now JC-761802M),  
28 Dec 2007/01 Oct 2007\*

Hav to be Nb Sub ELECT (AFV)

Manikandan B (No. 14557496X now JC-761850M),  
27 Dec 2007/01 Nov 2007\*

Hav to be Nb Sub ELECT (MV)

Lambodar Sah (No. 14545888Y now JC-761820P),  
17 Dec 2007/07 Oct 2007\*

Hav to be Nb Sub INST Mech

Suresh Kumar (No. 14563730Y now JC-761819A),  
19 Dec 2007/01 Dec 2007\*

Hav to be Nb Sub M/SMITH

Atar Singh Gujar (No. 14552257Y now JC-761816M),  
12 Dec 2007/01 Dec 2007\*

Hav to be Nb Sub PTR & DECTR

Ravinder Singh Kushwah (No. 14549272H now JC-  
761817P), 06 Dec 2007/01 Dec 2007\*

Hav to be Nb Sub SKT

Anmol Kumar Singh (No. 14545930M now JC-  
761787H), 26 Nov 2007/01 Oct 2007\*

Hav to be Nb Sub TCM (R)

Handry Barua (No. 14563032W now JC-761852X),  
04 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Hav to be Nb Sub Tech (AEF)

Baliram Sharma (No. 14585692N now JC-761777Y),  
27 Nov 2007/01 Nov 2007\*

- Gautam Kakati (No. 14566327X now JC-761772A), 19 Nov 2007/01 Oct 2007\*
- Jitender Bahadur Singh (No. 14576500K now JC-761776W), 30 Oct 2007/01 Oct 2007\*
- Param Hans Yadav (No. 14574227F now JC-761774L), 19 Nov 2007/01 Oct 2007\*
- Ram Kumar Chauhan (No. 14569830A now JC-761771X), 19 Nov 2007/07 Oct 2007\*
- Suresh Kumar T V (No. 14567254H now JC-761773H), 21 Nov 2007/01 Oct 2007\*
- Hav to be Nb Sub Tech (AVF)
- K Balasubramanian (No. 14618009L now JC-761823H), 26 Nov 2007/01 Oct 2007\*
- Mastan Kathat (No. 14617551P now JC-761822A), 16 Nov 2007/01 Oct 2007\*
- Hav to be Nb Sub Tech (ELF)
- Dayanand (No. 14565539W now JC-761779K), 05 Nov 2007/01 Oct 2007\*
- Prahlad Singh (No. 14577029F now JC-761781F), 12 Nov 2007/01 Oct 2007\*
- Ram Prit Ray (No. 14606218W now JC-761782K), 05 Nov 2007/01 Oct 2007\*
- Hav to be Nb Sub Tech ARMR
- K Subramaniam (No. 14609570L now JC-761813Y), 20 Dec 2007/01 Oct 2007\*
- Kina Biswal (No. 14608251M now JC-761812W), 29 Nov 2007/01 Oct 2007\*
- Hav to be Nb Sub Tech B-VIEH
- Anil Kumar AV (No. 14600841W now JC-761663N), 21 Jul 2007/01 Jul 2007\*
- Balvinder Lal (No. 14583971A now JC-761836A), 25 Dec 2007/01 Feb 2007\*
- Biplob Mandal (No. 14611496N now JC-761841L), 22 Dec 2007/01 May 2007\*
- Ghasee Ram Meena (No. 14593401X now JC-761843W), 20 Dec 2007/01 Jul 2007\*
- Hare Shanker Singh (No. 14610343X now JC-761846K), 02 Jan 2008/08 Jul 2007\*
- Jaibir Singh (No. 14607159F now JC-761845F), 26 Dec 2007/08 Jul 2007\*
- Lalan Singh (No. 14612810H now JC-761835X), 02 Jan 2008/01 Jul 2007\*
- Narpat Singh Chauhan (No. 14591776X now JC-761842N), 24 Dec 2007/01 Jul 2007\*
- Ravinder Kumar (No. 14606783N now JC-761838L), 20 Dec 2007/01 Mar 2007\*
- Sankar Bhattacharya (No. 14606527Y now JC-761837H), 20 Dec 2007/07 Oct 2007\*
- Shyamal Singha (No. 14611468F now JC-761840H), 22 Dec 2007/07 Oct 2007\*
- Vesapogu Vijaya Kumar (No. 14596651K now JC-761844Y), 24 Dec 2007/01 Jul 2007\*
- Wilson K V (No. 14609846W now JC-761839N), 20 Dec 2007/01 May 2007\*
- Hav to be Nb Sub Tech CMPTR
- Ashok Kumar Karsh (No. 14614823Y now JC-761805A), 01 Nov 2007/01 Nov 2007\*
- Suresh Singh Yadav (No. 14618156N now JC-761803P), 17 Dec 2007/01 Oct 2007\*
- Tulasy Das M (No. 14618350H now JC-761804X), 08 Dec 2007/01 Oct 2007\*
- Hav to be Nb Sub Tech ELECT
- Adesh Singh (No. 14592082K now JC-761833M), 24 Dec 2007/01 Oct 2007\*
- Goverdhan Prasad (No. 14608748K now JC-761857W), 16 Jan 2008/01 Dec 2007\*
- J Rajaraman (No. 14583296Y now JC-761858Y), 17 Jan 2008/01 Dec 2007\*
- Jagdish Singh (No. 14571529H now JC-761831F), 20 Dec 2007/08 Apr 2007\*
- Khanwar Bhan (No. 14606666H now JC-761856N), 16 Jan 2008/01 Dec 2007\*
- Kishori Lal (No. 14609327N now JC-761860W), 16 Jan 2008/01 Dec 2007\*
- Mahi Pal (No. 14596319N now JC-761859F), 16 Jan 2008/01 Dec 2007\*
- Mohinder Singh (No. 14592451W now JC-761834P), 20 Dec 2007/01 Oct 2007\*
- Mukul Pande (No. 14579932K now JC-761832K), 19 Dec 2007/08 Apr 2007\*
- Sanjaya Kumar Singh (No. 14598449P now JC-761853A), 18 Jan 2008/01 Dec 2007\*
- Hav to be Nb Sub Tech INST
- Chavan Dattatray Namdeo (No. 14614920W now JC-761810L), 06 Dec 2007/01 Oct 2007\*
- Dharamendra Singh (No. 14615007P now JC-761811N), 10 Dec 2007/01 Nov 2007\*
- Somnath Mukherjee (No. 14598862L now JC-761809W), 24 Nov 2007/01 Oct 2007\*
- Hav to be Nb Sub Tech RADIO
- Nandalal Gouda (No. 14597014A now JC-761866X), 12 Jan 2008/01 Dec 2007\*
- Natthu Singh (No. 14590175A now JC-761865P), 16 Jan 2008/01 Dec 2007\*
- Pawar Bharat Navruttii Rao (No. 14602187K now JC-761867A), 24 Jan 2008/01 Dec 2007\*
- Ram Chandra (No. 14616457Y now JC-761871H), 12 Jan 2008/01 Dec 2007\*
- Ratan Singh Chauhan (No. 14573793P now JC-761862L), 22 Jan 2008/01 Dec 2007\*
- Sajeet S (No. 14610959F now JC-761874W), 22 Jan 2008/01 Dec 2007\*
- Shiv Kumar Yadav (No. 14579070W now JC-761863K), 16 Jan 2008/01 Dec 2007\*

Shyam Singh (No. 14616168K now JC-761869L),  
21 Jan 2008/01 Dec 2007\*

Hav to be Nb Sub UPHOL

Prabhakaran Nair B (No. 14563867L now JC-761687F),  
01 Feb 2008/01 Feb 2008\*

Hav to be Nb Sub VM (AFV)

M Madhaiyan (No. 14558757M now JC-761848P),  
01 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Hav to be Nb Sub VM (MV)

Satish Chandra Sharma (No. 14544423M now JC-  
761818X), 15 Dec 2007/01 Nov 2007\*

Hav to be Nb Sub WELDER

Deo Bahadur Singh (No. 14549997H now JC-761768X),  
19 Nov 2007/01 Oct 2007\*

\*Gtd ante dated seniority

R. CHATURVEDI  
Under Secy.

#### ARMY BRANCH

#### DIRECTORATE GENERAL OF NATIONAL CADET CORPS

No. 328, dated 19th June 2008.—The President is pleased to promote Smt. Jasbir Kaur Chawla, Assistant (DoB 09 Jun 1948) (Group 'B' Non-Gazetted) of AFHQ Civil Service as Section Officer (Group 'B' Gazetted) under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules, 2001 in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 03 Apr 2008 to 23 Aug 2008 or till regular incumbents become available whichever is earlier :—

2. The appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

3. There will be no claim for regular promotion/appointment on the basis of promotion granted under Rule 7(8) of AFHQ CSR 2001 and the period of such appointment shall not count towards his seniority in the grade of Section Officer.

SHANKAR SINGH  
By Chief Admin Officer

#### AIR FORCE

No. 329, dated 20th June 2008.—President is pleased to make the following Substantive Promotion :—

#### INDIAN AIR FORCE

Substantive Flying Officer to be Substantive Flight Lieutenant

ADM Branch

P Panda (27726), A Dua (27727), D K Tyagi (27728),  
J S Subi (27729), A Awasthi (27730), V Bahukhandi

(27731), M S Kabawat (27732), A A Swami (27733),  
V Narayan (27734), S C Singh (27735), D Panda (27736),  
S Kumar (27737), A P Reddy (27738), A K Saraswat  
(27739), V V Baliga (27740), S Nayak (27741), P Paul  
(27742), R Sangwan (27743), A Yadav (27744), D Pebattira  
(27746), S S Nain (27747), A Sharma (27748), V V  
Marwadkar (27749), S Manmadhan (27750) w.e.f. 20 Dec  
2005

LGS Branch

V S Deshpande (27751), R Kurian (27752), P Upadhyay  
(27753), P K Jha (27754), D Sharma (27755), P K Ray  
(27756), G P Selvarathinam (27757), N Uniyal (27758),  
S Mastan (27759), R N M Tripathi (27760), S K Das  
(27761), S Jose (27763), J P Pulikesi (27764) w.e.f.  
20 Dec 2005

ACCTS Branch

S Sharma (27765), M Sahoo (27766), S S G Nair  
(27767), A Selot (27768), V Gupta (27769), A Shivhare  
(27770), K Sandeep Rao (27771) w.e.f. 20 Dec 2005

ADM Branch

S Rajkumar (28038), R K Chauhan (28039), H Singh  
(28040), S Sharma (28041), S Biswas (28043), N Sajith  
Kumar (28044), G V R Raju (28045), N P Kumar (28046),  
A Dubey (28047), V Deshwal (28048), V Shiva Kumar  
(28049), A Rana (28050), J Singh (28051), D Tyagi (28052),  
P Kumar (28053), S Yakub Ali (28054), S K Pal (28055),  
V Rawat (28056), S Kondala Rao (28057), A S Kalsi  
(28058), S K Mahala (28060), S Sreejith (28061), C Prakash  
(28062), K H Jana (28063), S Kumar (28064), V Chopra  
(28065), V Jadhav (28066), R Kumar (28067), B Prasanth  
(28068) w.e.f. 19 Jun 2006

ACCTS Branch

D Hooda (28069), P Singh (28070), A Mukherjee  
(28071), S S Mishra (28072), T V S S V S Vitthal (28073),  
M Sangwan (28074), R Rajesh (28075), S N Ghumare  
(28076), A Bhullar (28077), w.e.f. 19 Jun 2006

EDN Branch

R Sharma (28078), V R Godbole (28079), R Ajith  
(28080), C S Bhanuprakash (28081), S Shanmugam (28082),  
w.e.f. 19 June 2006

MET Branch

P Nishant (27191), H Singh (27631), G A M Vamsi  
(28083) w.e.f. 19 June 2006

F (P) Branch

R Nanda (27686), T Srivastava (27687), U Kumar  
(27689), A Tripathi (27690), P Rana (27691), M Bhargava  
(27692), B Abraham (27693), N P Venma (27694),  
M Bhatia (27695), S Prashanth (27696), A B Vasane  
(27697), P V Singh (27699), P P Patil (27700), M K  
Chhillar (27701), A S Mainkar (27702), G M Palekar  
(27703), S Sharma (27705), P K Ojha (27706), S Arora  
(27707), V Kalyani (27708), M P Singh (27709), S Mitra  
(27710), D B Autade (27711), A B Kolhe (27712),

S Kabra (27713), B Jai Ganesh (27714), I Singh (27715), V Puri (27716), S Sharma (27717), T Kaduskar (27719), D Sagar (27721), A S Singh (27722), A Vishnoi (27723), A Gupta (27724) w.e.f. 20 Dec 2005

#### F (P) Branch

U P Singh (27948), P Dikshit (27950), A Dhopawkar (27951), B Vijayaraghavan (27952), A Bhardwaj (27953), C Sharma (27954), S Raghuvanshi (27955), A K Singh (27956), P Sarathi (27957), K Kumra (27958), N S Pawar (27959), B Aruni (27960), A Yadav (27961), S Dhir (27962), M Charudathan (27963), S K Singh (27964), K Rajput (27965), J Singh (27967), N Abhishek (27968), A Deswal (27969), Y Faruqi (27970), A Vij (27971), S Singh (27972), V Kakran (27973), M U Sharma (27975), M K Singh (27976), N K Tiwari (27977), G Singh (27978), S K Mishra (27979), M S Sangwan (27980), V Abhinandan (27981), A Sharma (27982), S Arora (27983), S P Gore (27985), G Chaturvedi (27986), V Singh (27987), B D S K Jenamani (27988), A K Dogra (27989), K S II S Singh (27990), R Rai (27992), R Sharma (27993), M S Vighnesh (27994), K Arha (27995), A S Pawar (27996), A Dagar (27997), J S Sandhu (27998), A Repswal (27999), A Sxena (28000), A Singh (28002), N Nagarkoti (28003), A Mahapatra (28004), A Ranjan (28005), S Agarwal (28006), R Chattopadhyay (28007), H Sinha (28009), D Pankaj (28010), T J Ranjith (28011), Y S Panwar (28012), S K Pradhan (28013), J S Virdi (28015), A V Malpure (28016), Lakshveer (28017), A Singh (28019), A Dave (28022), R Gupta (28024), M P Khairmar (28026), S Nijhawan (28028), N P Kumar (28029), S Sirohi (28030), R Verma (28031), J S Sudan (28032), S K Yadav (28034), R Dogra (28035), A Kapur (28036) w.e.f. 19 Jun 2006

#### AE (M) Branch

G V Hegde (27813) w.e.f. 19 Dec 2005

#### AE (L) Branch

R N Gupta (27817) w.e.f. 03 Jan 2006

D Chaturvedi (27818) w.e.f. 18 Jun 2006

H K Sharma (27814), C Sharma (27815), S K Singh (27816) w.e.f. 19 Dec 2005

#### ADM Branch

M K Mishra (27819), M K Sinha (27820) w.e.f. 20 Dec 2005

#### LGS Branch

N K Singh (27821) w.e.f. 20 Dec 2005

#### EDN Branch

B Kuttappan (27822), U K Pramanik (27823) w.e.f. 20 Dec 2005

#### AE (M) Branch

T S Menon (28135) w.e.f. 14 Jul 2005

#### F (N) Branch

K Bhattacharya (27668), R Pandey (27693), A Gauru (27704), A K Singh (27718), P Dhar (27720) w.e.f. 20 Dec 2005

S Dutta (27949), S Sarathchandra (27974), W S Singh (27984), N Singh (28014), S Mishra (28018), H Tiwari (28020), K Kapoor (28023) w.e.f. 19 Jun 2006

#### F (P) Branch

(Ms) Rupinder Deep Kaur Sobi (27772), (Ms) Shaliza Dhami (27773) w.e.f. 20 Dec 2005

(Ms) S K Bhasin (28084), (Ms) N Hooda (28085), (Ms) A R Bhangaonkar (28086) w.e.f. 19 Jun 2006

#### ADM Branch

(Ms) B Pathania (27810) w.e.f. 06 Jan 2006

(Ms) Jyotsna Renu (27774), (Ms) Nitu Kapoor (27775), (Ms) Divya Yadav (27776), (Ms) Sonam Bakshi (27777), (Ms) R Faheema Atzal (27778), (Ms) Monica Mishra (27779), (Ms) Sunita Paul (27780), (Ms) Gangotri Ganguly (27781), (Ms) Swasti Verma (27782), (Ms) Elizabeth R Karunakaran (27783), (Ms) Deepika Singh (27784) w.e.f. 20 Dec 2005

#### LGS Branch

(Ms) S Kar (27811) w.e.f. 06 Jan 2006

(Ms) Usha Rani (27785), (Ms) P T Gajalakshmi (27786), (Ms) Soni Sharma (27787), (Ms) Avadhi (27788), (Ms) Binu Unnithan (27789), (Ms) Shweta Batra (27790), (Ms) Mamta Kumari (27791), (Ms) Reetu Angra (27792), (Ms) Pallavi Tyagi (27793), (Ms) Bhawna Singh (27794), (Ms) Ekta Kapuria (27795), (Ms) Priyanka Chauhan (27796), (Ms) Urmila Kumari (27797), (Ms) Reshma (27798), (Ms) Aparajita Kumari (27799), (Ms) Neetu Sehrawat (27800), (Ms) Priyanka Saxena (27801), (Ms) Baishali Banerjee (27802) w.e.f. 20 Dec 2005

#### ACCTS Branch

(Ms) Shipra Garg (27803), (Ms) Nithya Balasubramanian (27804), (Ms) Nirupama Pandey (27805), (Ms) Rarnandeep Kaur Virk (27806), (Ms) Chanchal Gehlot (27807), (Ms) Poonam Sharma (27808), (Ms) K Vasavi (27809) w.e.f. 20 Dec 2005

#### ADM Branch

(Ms) N Senapati (28087), (Ms) V Kaushal (28088), (Ms) G T A Lyngdoh (28089), (Ms) A Dhaliwal (28090) w.e.f. 19 Jun 2006

#### ACCTS Branch

(Ms) S Jaggi (28091), (Ms) M Agnihotri (28092), (Ms) S Dixit (28093), (Ms) V Ahluwalia (28094), (Ms) A Shrivastava (28095), (Ms) S Thomas (28096), (Ms) R Patil (28097), (Ms) A Chaturvedi (28098) w.e.f. 19 Jun 2006

#### EDN Branch

(Ms) S L Chandel (28099), (Ms) S Paulraj (28100), (Ms) G Srikala (28101), (Ms) S Rani (28102), (Ms) D D Master (28103) w.e.f. 19 Jun 2006

#### AJET Branch

(Ms) P Chidhaya (27632), (Ms) S Shahnewaz (27633) w.e.f. 19 Jun 2006

## AE (M) Branch

(Ms) P Pandey (27623), (Ms) G Tejaswini (27624)  
w.e.f. 07 Jul 2006

## AE (L) Branch

(Ms) M B Castelino (27625), (Ms) M S Poonam (27626),  
(Ms) Seema Bittu (27627), (Ms) Alka Pandey (27628)  
w.e.f. 07 Jul 2006

## AE (M) Branch

(Ms) S Pereira (28168) w.e.f. 05 Jan 2006

(Ms) Sapna N Deshmukh (28138), (Ms) D Shubha Vani  
(28139), (Ms) A Arthi (28140) w.e.f. 05 Jul 2006

(Ms) G Jayasheela (28165) w.e.f. 10 Jul 2006

## AE (L) Branch

(Ms) A Ray (28141), (Ms) S Gayathri (28142),  
(Ms) V Dharival (28143), (Ms) L Sharma (28144),  
(Ms) M S Girija Devi (28145), (Ms) S Shetty (28146),  
(Ms) R Chaudhary (28147), (Ms) S C Sanzgiri (28148),  
(Ms) P D Randhawa (28149), (Ms) N Puri (28150),  
(Ms) A M Vilma (28151), (Ms) T A Anto Gaiti Suhanya  
(28152), (Ms) R Mantri (28153) w.e.f. 05 Jul 2006

(Ms) N Limna (28154) w.e.f. 08 Jul 2006

(Ms) R Jain (28155), (Ms) P Bhattacharya (28164)  
w.e.f. 09 Jul 2006

(Ms) P Yadava (28166), w.e.f. 10 Jul 2006

(Ms) M Kaur (28167), w.e.f. 23 Jul 2006

## AE (M) Branch

## Fg Offr to be Substantive Flt Lt

R Vishwakarma (27825), A Mishra (27826), M Natarajan  
(27827), V Sanjeev (27828), M Nikhil (27829), H S Kotur  
(27830), Saurabh Mohan (27831), Gopalakrishna Venu  
Kurup (27832), Basil Oscar Rebeiro (27833), Jahagirdar  
Nilesh Govind (27834), Anil Kumar (27835), Naredla  
Viswanath (27836), Suresh Kumar (27837), Kamili Sri  
Phani Kumar (27838), Hajare Manoj Ramrao (27839), D A  
Nagendra (27840), Yudhvir Singh (27841), Vishal Goyal  
(27842), Rajarathinam Karthik (27843), Natarajan  
Rajagopalan (27845), Sameer Sudhir Deshmukh (27846),  
Ramachandran Pradeep (27847), Shishir Chaturvedi (27926),  
Anand Dutt (27932), Golla Joshua (27933), Fg Offr Sunny  
Vyas (27934), J George (28298), P Lende (28299), A K  
Sharma (28301), N S Thomas (27574) w.e.f. 03 Jan 2005

## AE (L) Branch

## Fg Offr to be Substantive Flt Lt

Y Anantha Narayanan (27614), Suvidip Maiti (27622),  
Perusomala Raghavacharya (27629), Fg Offr Abhinandan  
Das (27848), Naveen Kumar Jayaram (27849), Sandeep  
Debnath (27850), Sampath Krishnan Muthuvel (27851),  
Vikram Chhibber (27852), Pankaj Kumar Padhy (27853),  
Tushar Rastogi (27854), Bannehlang Dkhar Giri (27855).

Abhishek Singh (27856), Manish Kumar Verma (27857),  
Nimit Kaura (27858), Anupam Kapoor (27859), Nayan  
Kumar Sen (27860), Ravi Kumar Bajia (27862), Ravishankar  
Patil (27863), Abhishek Tyagi (27864), Chintan Khanna  
(27865), Nitin Bakhshi (27866), Prasad Kalyat Thazathu  
Veetil (27867), Baljeet Singh Anand (27868), Vaidyanathan  
Magesh (27869), Vihang Pramod Nadkarni (27871), Kishore  
Raju Gadhira (27872), Sudheer Parameshwaran (27873),  
Manish Balani (27875), P Pramanik (27876), Girish Chandra  
Mathpal (27877), Mehul Gupta (27878), Manish Rastogi  
(27880), Abraham Jacob (27881), M Chandru (27882),  
Amardeep Singh (27883), Rohit Anand (27884),  
Radhakrishnan Ravindranath Senthil Kumar (27885), Ashish  
Karai (27886), Manu Gopal (27887), Sumit Sharma (27888),  
Deepak Krishnananda Prabhu (27889), Gaurav Dwivedi  
(27890), Nishant Verma (27891), Anirban Maitra (27892),  
K K Ganesh (27893), D'Mello Francis Mathew (27894),  
Upadrasta Vidyasagar Laxmayya (27895), R Yashawanth  
Raj (27896), Arun Singh (27897), M Dhanasekar (27898),  
Mukul Kaitha (27899), Abdul Rehman (27900), Srikant  
P A (27901), Manish Dahiya (27902), Sachin Sadasivan  
(27903), Ashish Tiwari (27904), Tejinder Singh Baath  
(27905), T Arunprasad (27906), Arjun Jadhav (27907),  
Vits Susan Vincent (27908), Dipitman Mukhi Bhattacharya  
(27910), Gaurav Ramkrishna Karandikar (27911), Dharam  
Vir (27912), Chudasama Narendra Singh Juvansinh (27913),  
Saurabh Kalra (27914), Yogesh Parihar (27915), Tarun  
Shakti Dahiya (27916), Sachin Tom John (27917), Abhinay  
Shukla (27918), Prithviraj Singh Chouhan (27919), Tushar  
Joshi (27920), Vineet Garg (27921), Satish Kumar Pandari  
(27922), Puran Deo Ojha (27923), Gireesh Krishnan  
(27925), Suradeep Nath (27928), Kasinethan Ramachandran  
(27929), Kallol Bose (27930), Karthik Subramaniam  
(27931), N S Pillai (28302), C Sreekumar (28303),  
S Mukherjee (28304), B Banerjee (28305), M N Jainy  
(28306), G M K Nambiar (28307), S Narayanan (27611)  
w.e.f. 03 Jan 2005

## AE Branch

M Dilli Babu (27316), A K K Y Das (27384),  
M J Balamuguran (27393), D Yadav (27346), B Karthikeyan  
(27317), V R Kishore (27395), D Vyas (27358), P Vashistha  
(27369), S Satish (27424), P Anand (27337), M Sriram  
(27335), V Valeri (27396), K Kiran (27361), U K Prabodh  
Kumar (27336), G P Singh (27311), P Anil Kumar (27431),  
V Chaitanya P (27356), P Abhishek (27362),  
R Muraleeswaran (27383), K Jayandan (27413), R Agarwal  
(27327), C C C Anantharaj (27325), D Krishnamani (27117),  
S Giridhar (27355), S Singh (27364), S Rajesh (27351),  
R Sankararaman (27350), G Shukla (27339), A Dubey  
(27345), B Karthik (27349), J Ravindra (27329), G Pratap  
(27405), M Sharma (27313), S V Suvin Kumar (27321),  
Pritam Kumar (27340), P K Sharma (27322), K P Kiran  
Kumar (27377), M Karthikeyan (27318), T Verma (27412),  
G Sharma (27341), S Ahmad (27409), A G N Chaitanya  
(27347), J Prashanth (27343), A Ramakrishnan (27410),  
V Chaturvedi (27312), S Charles (27348), P Chandrasekhar  
(27938), P K Bhardwaj (27944), S Raghavendran (27939).

P H Kalaskar (27945), Jay Prakash (27940), Q S S Imran Ultah (27941), B Pandey (27942), K Rajendran (27946), T Jhon (27947), A Mallick (27943) w.e.f. 16 Dec 2004  
D Nimal (28300) w.e.f. 03 Jan 2005

## AE (M) Branch

PG Offr to be Substantive Flt Lt

F K Paul (27570), S P Ghule (27572), S V P Nair (27573), C V Victor (27577), U Govindakrishnan (27578), G S Palha (27579), N Shivashankar (27581), V D Baby (27583) w.e.f. 16 Dec 2004

## AE (L) Branch

PG Offr to be Substantive Flt Lt

A Tiwary (27587), A Goswami (27592), H Thomas (27594), A Jain (27595), Rakesh (27596), K C Geda (27598), B Deb (27600), S Kumar (27609), M M Ingale (27612), S D Seetha (27616), P Saha (27618), A Zanane (27620), A Hassan (27630), M Govindarajan (27634) w.e.f. 16 Dec 2004

S SRIVASTAV

Wg Cdr

JDPO-3(D)

## DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 330, dated 20th June 2008.—The President is pleased to make the following promotion :—

Shri D Venkateswarlu, CCE, R&D to be Chief Executive, (Civil Works and Estates) (Group 'A') in DRDO, HQ, with effect from 09-04-2008 (P/N) in the pay scale of Rs. 18,400—22,400/-.

T ABDURRASSAK  
Jt Dir (Pers)

## ARMY BRANCH

No. 331, dated 20th June 2008.—The President is pleased to permit the undermentioned AD Corps Officer to resign from Army Service at her own request w.e.f the date shown against her name under Al 15/79 :—

REGULAR ARMY  
ARMY DENTAL CORPS  
SHORT SERVICE COMMISSION  
RESIGNATION/RELEASE

Capt Ritu Mohan (DS-12210M), 31 Mar 2008 (AN)

D K TANEJA  
Maj Gen  
Addl DGDS

No. 332, dated 20th June 2008.—The President is pleased to retire Shri Balbir Singh, Under Secretary, Ministry of Defence from Government Service with effect from 31-05-2008 (AN) on attaining the age of superannuation.

K MURALI  
Under Secy

## FINANCE DIVISION

No. 333, dated 20th June 2008.—The President is pleased to retire Shri Raj Singh, Section Officer, Ministry of Defence (Finance) from Government Service with effect from 31-05-2008 (AN) on his attaining the age of superannuation.

R C MEENA  
Asstt Financial Adviser(E)

## INDIAN AIR FORCE

## CORRIGENDUM

No. 334, dated 20th June 2008.—Reference DGN in respect of Gp Capt J V Singh (15758) LGS. The date of substantive rank of Gp Capt has been vetted vide Dy CDA(AF) No. DCA/O-H/838/Vol.XXIX/Prom dated 15-03-2007. However, the substantive date of Gp Capt rank may be amended as under :—

## LGS BRANCH

To be Substantive GP Capt (LGS Branch)

FOR : GP Capt (ACTG) J V Singh (15758) LGS  
01-10-06READ : GP Capt (ACTG) J V Singh (15758) LGS  
19-09-06

K V SHANKAR  
Jt Dir Pers (Officers)-2(B)

No. 335, dated 23rd June 2008.—Shri Sheojee Manjhi, CSS, Section Officer, Ministry of Defence expired on  
14-03-2008.

K MURALI  
Under Secy